CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Faridabad Edition: 1 Page: NBTFRJK1 User: cci Time: 03-15-2026 22:03 Color:

नई दिल्ली > **सोमवार, 16 मार्च 2026** > फाल्गुन 25, शक संवत 1947, चैत्र कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2082

WATCH GOD WATCHDOG

वर्ष 80, संख्या 63 > पेज 16* > फरीदाबाद > मूल्य ₹3.50 या ₹8.50* द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित www.nbt.in

*मासिक खरीद पर ही लागू

NBT नवभारत टाइम्स

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001205474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com पर जाएं।



ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ कोई समझौता नही

▶देखें अंदर



9 अप्रैल से पांच राज्यों में चुनाव, गिनती 4 मई को: EC

▶देखें अंदर

अधिक जानकारी के लिए
QR कोड स्कैन करें या **amazon.in/sell** पर जाएं

amazon.in

Amazon अपने विवेकानुसार इस संशोधन को बदल या वापस ले सकता है।
Amazon.in पर बिक्री की कोई गारंटी नहीं है और कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट लिस्टिंग तथा बचत के उपयोग से जुड़े सभी निर्णय विक्रेता स्वतंत्र रूप से लेते हैं।

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली/एनसीआर । सोमवार, 16 मार्च 2026

> लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, यह मिल-जुलकर और समानता के साथ रहने की जीवन-पद्धति है।
> – डॉ. बी.आर. आंबेडकर

आयोग की चुनौती

चार राज्यों – असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कहने के लिए ये राज्यों के इलेक्शन हैं, लेकिन इनमें ही जितने मतदाता रजिस्टर्ड हैं, उतने पूरे अमेरिका में नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बहुत गर्व के साथ बताया भी कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा को मिलाकर कहीं 17.4 करोड़ वोटर्स होते हैं। लेकिन, इस चुनाव में संख्या इतनी बड़ी चुनौती नहीं है।

5 राज्यों में चुनाव

SIR पर विवाद । CEC ने बताया कि आयोग ने सभी चुनावी राज्यों का दौरा कर तैयारी परखी है। उन्होंने Special Intensive Revision यानी SIR का जिक्र किया कि कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि हकीकत यही है कि SIR शुरू होने के बाद से ही विवाद ज्यादा हुए हैं। बड़े पैमाने पर नाम कटने को लेकर विपक्ष के कई आरोप हैं। पश्चिम बंगाल में खासकर आयोग और सत्ताधारी TMC के बीच टकराव देखने को मिला है।

बंगाल में टकराव । जब मुख्य चुनाव आयुक्त तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंचे थे, तो उन्हें विरोध-प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी थीं। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने के निर्देश के बाद उन्होंने धरना खत्म किया था। राज्य में SIR से लगभग 63.66 लाख नाम कटे हैं और 60 लाख से ज्यादा विचाराधीन हैं।

CEC के खिलाफ प्रस्ताव । चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इस समय सबसे ज्यादा सवाल है। CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जाहिर है कि विपक्ष का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। यह प्रस्ताव TMC की तरफ से लाया गया था और इस पर 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। इसका मतलब, कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट दिख रहा है। इसमें बिहार SIR का जिक्र है और यह भी आरोप कि CEC एक खास दल के हित में काम करते हैं। अब मसला यह नहीं है कि प्रस्ताव पास होता है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि इन चुनावों के दौरान आयोग किस तरह से अपनी निष्पक्षता जाहिर करता है।

विवाद हित में नहीं । चुनाव में सभी को बराबर मौके मिलें और किसी के साथ पक्षपात न हो, यह आयोग की जिम्मेदारी है। संवैधानिक संस्था होने के नाते यह जरूरी हो जाता है कि आयोग की मंशा पर सवाल उठाने का किसी को मौका न मिले। कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कभी SIR जैसे विवाद आयोग के हित में नहीं हैं।

नश्तर

पेड़ मुस्कुरा रहा है

हवा नहीं चल रही थी। पेड़ फिर भी हिल रहा था। पेड़ पर बैठी चिड़िया मसला भांप गई। उसने पूछा, 'पेड़ तुम कांप क्यों रहे हो?' 'ये लोग मुझे काटने वाले हैं', पेड़ ने घबराते हुए कहा। 'इंसानों को गैस नहीं मिल रही। खाना बनाने के लिए उन्हें लकड़ियों की जरूरत है।' चिड़िया उड़ी और वापस आकर बोली, 'कुछ इंसान आ तो रहे हैं।' पेड़ को लगा आज उसके जीवन का आखिरी दिन है। उसने मन ही मन अपने देवता को याद किया। देवता ने पेड़ से कहा, 'घबराओ नहीं, मनुष्य की मूर्खता पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा।'

सौरभ श्रीवास्तव

चार-पांच लोग सामने से निकल गए, तो पेड़ ने राहत की सांस ली। वह अपनी डाल ऊंची करके देखने लगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? लोग थोड़ा आगे जाकर रुक गए। उन्होंने पास की नाली में पाइप डाला और उसे गैस चूल्हे से जोड़कर आग लगाने लगे। पेड़ और चिड़िया एक-दूसरे को देखकर खिलखिलाने लगे। लोगों ने कुछ देर कोशिश की और चले गए। थोड़ी देर बाद कुर्ता-पायजामा पहने दो लोग आए और पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीने लगे। उनके सामने से एक बुजुर्गवार गुजरे।

उन्होंने ललचाई नजरों से चाय का कप देखा और नेतानुमा व्यक्ति से पूछा, 'आपको रसोई गैस मिल गई क्या, जो चाय बनाकर पी रहे हैं?' जवाब मिला, 'चाय बनाने के लिए रसोई गैस की जरूरत नहीं होती। नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है।' दूसरे कुर्ताधारी ने पहले को घूरा और बुदबुदाया, 'उस गैस से चूल्हा तो जला नहीं था।' पहले ने कहा, 'यह हम जानते हैं, इसे क्या पता।' बुजुर्ग ने कहा, 'नाले की गैस से चाय बनाने का क्या तरीका है, मुझे भी बता दीजिए।' नेतानुमा व्यक्ति ने उनका व्हट्सऐप नंबर लिया और ढेर सारे मेसेज फारवर्ड किए। तब से वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे फोन देख रहे हैं। उन्हें गैस, चाय, किसी चीज की जरूरत नहीं। पेड़ और चिड़िया उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं।

एकदा

संकलन : मुकेश भट्ट

कविता का सम्मान

गुजराती साहित्य के इतिहास में नानालाल दलपतराम कवि का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म 16 मार्च 1877 को अहमदाबाद में हुआ था। युवावस्था में ही उनकी प्रतिभा निखर आई थी। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना 'वसंतोत्सव' प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य की मधुर अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। उन्होंने संस्कृत के महान कवि कालिदास की कृतियों 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' और 'मेघदूत' का गुजराती में अनुवाद किया। साथ ही भगवद्गीता और कई उपनिषदों को भी गुजराती पाठकों के लिए सुलभ बनाया। एक बार उन्हें बड़ौदा स्टेट की गायकवाड़ रियासत के दरबार में आमंत्रित किया गया। दरबार में उनसे राजा की प्रशंसा में कविता सुनाने को कहा गया। उस समय यह सामान्य परंपरा थी। नानालाल ने विनम्रता से उत्तर दिया कि कविता केवल किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए होती है। यदि कवि केवल प्रशंसा के लिए लिखे, तो उसकी रचना का मूल्य घट जाता है। दरबार में क्षणभर के लिए सन्नाटा छा गया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा वही है, जो सत्य और स्वाभिमान के साथ खड़ी रह सके।



RSP ने चुनावी राजनीति में जैसी परिपक्वता दिखाई, वैसी प्रशासन में भी चाहिए

नेपाल को कितना बदल पाएंगे बालेन

चंद्रभूषण

नेपाल की संसदीय राजनीति में पहली बार किसी पार्टी को अकेले दम पर प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। इससे कम से कम राजनीतिक अस्थिरता की समस्या तो हल हुई। चौतरफा लहर खड़ी करके चुनाव जीतने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) चार साल पुरानी है। पॉपुलर कल्चर से जुड़े उसके नेता रवि लमिछाने 2022 के संसदीय चुनाव में इतनी सीटें ला चुके थे कि तब से लेकर इस चुनाव के पहले तक बनी चार में से तीन सरकारों में किसी न किसी रूप में उनकी हिस्सेदारी रही। लेकिन, तब की RSP से अभी की पूर्ण बहुमत वाली RSP अपने स्वरूप में बहुत अलग है।

बेदाग छवि । दुनिया भर के लोकतांत्रिक दायरे में यह विरला ही मौका था, जब हिम्मत करके एक छोटे राजनीतिक दल ने भारी तोड़फोड़ वाले युवा आंदोलन का फायदा उठाने के लिए खुद को पूरी तरह खोल दिया। और तो और, प्रधानमंत्री पद के लिए काठमांडू के मेयर बालेन शाह जैसे व्यक्ति को आगे किया, जिसकी नेपाली राजनीति में अभी तक बेदाग छवि है और किसी स्थापित राजनीतिक दल से जिसका जुड़ाव नहीं माना जाता। सिर्फ एक ही बात बालेन और लमिछाने में साझा है कि दोनों का जुड़ाव पॉपुलर कल्चर से रहा है और जेन जी उनके स्टेज परफॉर्मेंसेज की रील्स देखती रही है।

लोकतंत्र बनाम राजशाही । इंटरनेट उपलब्धता को लेकर Gen Z के आंदोलन से ठीक पहले तक राजतंत्र समर्थक ताकतें सक्रिय थीं। तब संदेह हो रहा था कि सियासी पार्टियों से हो रहे मोहभंग का फायदा उठाकर कहीं राजशाही दोबारा कब्जा न जमा ले। लेकिन, नेपाली जनता लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ गई है, राजा के लिए करने को वहां कुछ नहीं है।

युद्ध का असर । असंतोष का दूसरा मामला जनता के स्तर पर लिए गए कर्जों की अदायगी का था। नेपाल में ब्याज दरें भारत से ज्यादा हैं। कुर्की-जब्ती की खबरें लोगों को विचलित करने लगी थीं। तत्काल दो बड़े मामले महंगाई और बेरोजगारी के हैं, जिनका संबंध खाड़ी की लड़ाई से है। फ्यूल की किल्लत नेपाल के लिए बहुत बड़ी विपत्ति है। विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले नेपालियों की कमाई से आता है। RSP सरकार को इस मसले से बड़े एहतियात के साथ निपटना होगा। एक आफत भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की हमेशा ही रहती है। गनीमत है कि अभी दोनों ताकतवर पड़ोसियों के बीच कोई तनाव नहीं चल रहा है। बात सिर्फ अच्छी सिग्नलिंग की है, जो बालेन कर सकते हैं।

सिस्टम में सुधार । यहां से आगे की समस्याएं गहरी हैं और दुर्भाग्यवश, पिछले 35 साल की चुनावी संस्कृति में उन पर ठीक से विचार भी नहीं किया जा सका है। व्यवस्थित नौकरशाही, कानून का राज सुनिश्चित करने वाली न्यायपालिका और उद्यम-व्यापार खड़ा करने के एक न्यूनतम ढांचे की कमी है। इसका समाधान रातों रात नहीं होगा, लेकिन बालेन शुरुआत कर सकते हैं।

रोजगार संकट । अभी तक हालत यह रही है कि राजशाही विरोधी आंदोलन में बड़े-बड़े कद हासिल कर लेने वाले नेपाली राजनेता सबसे पहले अपनी कुर्सी और ओहदा बचाए रखने की फिक्र करते रहे हैं। फिर उनका ध्यान राष्ट्रीय आमदनी के जरिये के रूप में तीन पुराने स्रोतों (और उसमें भी अपने हिस्से) पर जाता रहा है। ये हैं :

1. विदेशी सहायता, जिसमें पश्चिमी NGO, चीन और भारत से मिलने वाली राष्ट्रीय मदद और वर्ल्ड बैंक-IMF जैसी संस्थाओं से लिया जाने वाला कर्ज शामिल है।
2. बाहर काम करने गए नेपाली कामगारों का भेजा हुआ पैसा।
3. टूरिज्म से होने वाली आमदनी।

इन वित्तीय स्रोतों के साथ एक बड़ी उलझन यह है कि इनसे संगठित रोजगार नहीं खड़ा होता।

जनता की उम्मीदें । जब तक नेपाल का समाज सूचनाओं से कटा हुआ था, प्रकृति से जूझने वाली एक आत्मनिर्भर पहाड़ी आत्मसंतुष्टि उसमें बनी रहती थी। लेकिन, अभी एक नेपाली युवा को वह सब चाहिए, जो दुनिया में कहीं भी उसके जैसे लोगों को मिल रहा है। RSP ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 7% सालाना ग्रोथ रेट के साथ अगले पांच वर्षों में नेपाल को 100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देने का वादा किया है। इसके आसपास भी जाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, जो नेपाल की तरफ तभी आएगी, जब उसको यहां अपने लिए ग्रोथ की कोई संभावना दिखेगी। बल्कि, उससे पहले डूब जाने का कोई खतरा नहीं नजर आएगा। आशा है कि जैसी प्रौढ़ता बालेन शाह और रवि लमिछाने ने राजनीति में दिखाई है, वैसी ही वे अधिक बुनियादी मामलों में भी दिखाएंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

आपको देखते ही चमक उठती है फोटोकॉपी मशीन

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

छपे हुए को छापना आसान है, पर किसी के लिखे हुए को हूबहू उसी की हैंडराइटिंग में दूसरे कागज पर उतार देना... चेस्टर कार्लसन ने जब फोटोकॉपी का अविष्कार किया तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेरॉक्स नाम तो उसे बाद में मिला, जब इसी नाम की एक कंपनी ने इसका कमर्शल इस्तेमाल शुरू किया। आज बड़े-बड़े नोट्स और मोटी किताबें मोबाइल में समा जा रही हैं, और जब इमेज व ऑडियो से भी टेक्स्ट निकाल लेने वाले सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर फ्री में मिल रहे हैं, तब जेरॉक्स मशीनें बहुत पुरानी तकनीक लगती हैं, लेकिन इनका चमत्कार आज भी वैसा ही है।

टेक्नॉलजी के साथ ये मशीनें भी ज्यादा अडवांस्ड हुई हैं, पर पुरानी आदत की तरह कुछ बातें हैं, जो अब भी पहले जैसी हैं। काम मिलते ही पहले मशीन का प्रिंट एरिया चमकता है, मानो आंखों में चमक आ गई हो। फिर आती है एक आवाज, जो बताती है कि मशीन जाग चुकी है। जिस डॉक्युमेंट की फोटोकॉपी करनी होती है, उसे प्रिंट एरिया में रखकर कवर करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जमाना इतना खुलने के बाद भी मशीन ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, उसे आड़ चाहिए या फिर कोई सीक्रेट है उसका जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहती। कवर के नीचे फिर एक रोशनी कौंधती है, जो कहती है कि तसल्ली रखिए, काम जारी है। डॉक्युमेंट स्कैन होते समय की खरखराहट और फिर पेपर ट्रे से कागज के सरक कर बाहर आने की आवाज... एकदम गरमागरम डिलिवरी मिलती है।

स्कूल-कॉलेज से लेकर ऑफिसों तक, जहां नोट्स हैं, फाइलें हैं, वहां जेरॉक्स मशीनें जरूर होंगी। न जाने इन्होंने कितने घंटे बचाए हैं, जो फिर लिखने में जाते। आपके पास भी इनकी कोई याद जरूर होगी, खासतौर पर एग्जाम सीजन में इनकी दुकानों पर लगी कतार की।

अगर रेकॉर्ड रखने की आदत होती इन मशीनों को, तो हरेक के पास कहानियों का मोटा-मोटा पुलिंदा होता। लेकिन, इन्हें दूसरों के राज में झांकने की आदत कहां! कितनी भी गोपनीय फाइल हो और कितना भी जरूरी दस्तावेज, इनका तटस्थ भाव नहीं बदलता।

दशकों से कर्मचारियों की सहयोगी और बॉस लोगों की राजदार हैं जेरॉक्स मशीनें। जिन कागजों को सबसे छिपाया जाता है, उन्हें भी बहुत भरोसे के साथ इन मशीनों को सौंप दिया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद भी इन्हें दिया जाता है कोई अकेला कोना, जहां ये गुमसुम बैठी रहती हैं किसी काम के इंतजार में। इसके बाद भी कोई शिकायत नहीं है इन्हें। हालात से शिकायत करने का फायदा भी क्या! इन्हें बस इतना चाहिए कि कोई आए और बटन दबाए। आपने ऑर्डर दिया कि नहीं, इनकी आंखें फिर चमक उठेंगी, नींद टूट जाएगी।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

असफलताओं पर ही सोच अटकी रही, तो आगे कैसे बढ़ेंगे

देवेंद्रराज सुथार

जिंदगी अपनी ही लय में चलती है, लेकिन बदलती परिस्थितियों को लेकर हम बेचैन हो जाते हैं। यही बेचैनी धीरे-धीरे हमारे मन की ऊर्जा को खा जाती है और सोच को धुंधला कर देती है। और हमारा ध्यान केवल उन चीजों पर टिक जाता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं। फिर हम वर्तमान से कटने लगते हैं। ऐसे में आध्यात्मिक साधना हमें नई राह दिखाती है।

जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, एक सीख लेकर आता है। लेकिन जब हम किसी घटना को दबाने, उससे भागने या उसका दोष किसी और पर मढ़ने लगते हैं, तो भीतर असंतोष और अवसाद पनपने लगता है। मन की हलचल बढ़ती है, निर्णय कमजोर पड़ते हैं और सच्चाई को देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब हम मानसिक चंचलता से थोड़ा अलग होकर स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, तो मन साफ होने लगता है और अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं।

AI Image



जीवन की गहराई तब समझ में आती है, जब अपने दायरे की पहचान होती है। असुविधा, असफलता या कठिनाई जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन पर लगातार अटके रहना हमारी सोच को सीमित कर देता है। वास्तविक शक्ति हमारे भीतर के संतुलन और समझ में छिपी है। यही संतुलन मानसिक स्वतंत्रता देता है।

चुनौतियां और असंतोष जीवन के साथ चलते हैं, पर उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखते हैं, तो हमारे निर्णय अधिक स्थिर और स्पष्ट हो जाते हैं। तब जीवन की गति भी संतुलित महसूस होने लगती है। यदि हमारी ऊर्जा शिकायत करने और दूसरों पर दोष लगाने में ही खर्च होती रहे, तो मन धीरे-धीरे बोझिल और अशांत हो जाता है। और जीवन ठहर सा जाता है। लेकिन जब वही ऊर्जा हम विचार, आत्मनिरीक्षण और सही दिशा में प्रयास करने में लगाते हैं, तो समाधान के रास्ते दिखाई देने लगते हैं।

कांटे की बात



डॉनल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

मेटाबॉलिक बीमारियों का हॉटस्पॉट बन रहा भारत

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) की नई स्टडी के मुताबिक, दुनिया में मोटापा तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। भारत में मोटापा, डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों के मामले खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं।

प्रस्तुति- अभिषेक मिश्र

जनता जंक्शन

इरफान

जब ईरान को इस्राइल ने बेचे हथियार

मृत्युंजय राय

इस्राइल और ईरान के रिश्तों को समझने के लिए ट्रिटा पारसी (Trita Parsi) की किताब 'Treacherous Alliance' पढ़नी चाहिए। इसमें ट्रिटा बताते हैं कि कभी ये मुल्क परदे के पीछे दोस्त हुआ करते थे। वहां से किस तरह से दोनों के संबंधों में तल्खी आई और फिर दोनों के बीच युद्ध भी हुए। अभी अमेरिका के साथ मिलकर इस्राइल एक और युद्ध ईरान के खिलाफ लड़ रहा है।

ट्रिटा ने इस किताब को लिखने के लिए इस्राइल, ईरान और अमेरिका के कई शीर्ष अधिकारियों से बात की है। वह बताते हैं कि बाहर से भले ही यह आइडियोलॉजिकल वॉर लगे, लेकिन यह सच नहीं है। दोनों देशों के संबंध भू-राजनीति और राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होते रहे हैं।

किताब में बताया गया है कि जब ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सत्ता थी, तब इस्राइल और ईरान काफी करीब थे। तब दोनों ने इराक और इजिप्ट जैसे देशों के खिलाफ हाथ मिलाया था। मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी SAVAK इस क्षेत्र में आ रहे सोवियत संघ के हथियारों के बारे में आपस में सूचनाएं साझा करती थीं। यही नहीं, इस्राइल तब ईरान से तेल खरीदता था और उसके बदले उसे हथियार देता था और कृषि क्षेत्र में भी उसकी मदद करता था। 1973 में जब अरब देशों ने तेल की बिक्री रोकी थी, तब इस्राइल के लिए ईरान इसका अहम जरिया था। ट्रिटा के मुताबिक, दोनों ने उस दौर में प्रोजेक्ट फ्लावर नाम से मिलकर मिसाइल बनाने की योजना भी शुरू की थी। उनका कहना है कि इसकी वजह भी थी। इस्राइल अरब देशों के बीच यहूदियों का मुल्क होने की वजह से अलग-थलग था, जबकि ईरान ऐसा गैर-अरब मुल्क था जो ताकतवर था।

मगर यह दोस्ती 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद टूट गई। तब शाह को पद छोड़ना पड़ा और अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी ने इस्राइल को 'छोटा शैतान' घोषित किया, जबकि अमेरिका उनके लिए 'बड़ा शैतान' था। हालांकि, इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद भी ईरान और इस्राइल के रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। ट्रिटा लिखते हैं कि 1980-88 के बीच जब ईरान का इराक के साथ युद्ध चल रहा था, तब इस्राइल ने गुपचुप तरीके से ईरान को 50 करोड़ डॉलर के हथियार बेचे थे। इनमें अमेरिका में बने F-4 लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे भी शामिल थे। दरअसल, उस वक्त इस्राइल को सद्दाम हुसैन कहीं ज्यादा खतरनाक लगते थे।

विचार विंडो

ट्रिटा का यह भी मानना है कि अमेरिकी नीतियों की वजह से भी ईरान का अलगाव और उससे दुश्मनी बढ़ी। उन्होंने लिखा है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद ईरान ने अल कायदा के बारे में सूचना देने की पेशकश की थी। उसने परमाणु हथियार बनाने को लेकर पश्चिम और इस्राइल की चिंता दूर करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन तब अमेरिका में जॉर्ज बुश की सरकार थी और उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

किताब में बताया गया है कि बुश सरकार में ईरान विरोधी और इस्राइल समर्थकों की मजबूत पकड़ थी। ट्रिटा लिखते हैं कि इस्राइल की अमेरिका के साथ लॉबिंग की वजह से ईरान को ऐसा खतरा बताया जाने लगा, जिसे खत्म करना जरूरी था। 2002 में बुश ने दुष्ट देशों में ईरान का नाम भी लिया था। इससे इस्लामिक रिपब्लिक की दूरी उससे और बढ़ी। इसके बाद उसने परमाणु हथियार बनाने के बारे में गंभीरता से प्रयास करने शुरू किए, लेकिन वह अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया है।

किताब में यह भी लिखा गया है कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद ईरान का अलगाव और बढ़ा। कुल मिलाकर, इस किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि इस्राइल और ईरान के बीच अदावत की वजह धर्म नहीं है बल्कि इसके पीछे भू-राजनीतिक समेत कई कारण हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

संघर्ष और हिंसा रुके

14 मार्च का संपादकीय 'एक युद्ध यह भी' पढ़ा। जब दुनिया का ध्यान अमेरिका, इस्राइल और ईरान के तनाव पर है, उसी समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगान क्षेत्रों में हालात खराब हो रहे हैं। इन टकरावों का सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को हो रहा है, खासकर महिलाओं और बच्चों को। गरीबी और बेरोजगारी के कारण डूरंड रेखा के आसपास रहने वाले लाचार और मजबूर लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में विश्व बिरादरी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हिंसा रुके और लोगों की जान बचाई जा सके।

प्रबुद्ध रावत, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 2 Page: NBTGRP9 User: cci Time: 03-15-2026 22:43 Color:

वॉर अपडेट

हिजबुल्लाह कमांडर का भाई मारा गया

इस्राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने दावा किया कि अमेरिका के मिशिगन में सिनेगॉग हमले का आरोपी अयमान मोहम्मद गजाली, हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम गजाली का भाई है। आईडीएफ के अनुसार इब्राहिम बद्र यूनिट में हथियार संचालन संभालता था और पिछले सप्ताह इस्राइली हवाई हमले में मारा गया।

दक्षिणी बेरूत में हालात गंभीर

लेबनान में इस्राइली हमलों से मानवीय संकट गहरा गया है। दक्षिणी बेरूत के इलाकों में रातभर हुए हवाई हमलों के बाद कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं, ईरान ने कहा कि उसके 56 सांस्कृतिक केंद्र तबाह हुए हैं।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा, जंग खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि जंग खत्म करने की कोई योजना ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि योजना के बिना युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तनाव का बढ़ना दुनिया के लिए चिंता की बात है।

ईरान से कोई समझौता नहीं होगा: ट्रंप
बातचीत का सवाल ही कहां: अराघची

■ एपी/एएफपी, वॉशिंगटन/तेहरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर साफ इनकार कर दिया है। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि हमारी ओर से भी बातचीत का कोई सवाल नहीं है।

एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में वाशिंगटन किसी जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि किसी भी संभावित समझौते में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह खत्म करना सबसे अहम शर्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तब तक किसी भी तरह के सीजफायर या डील पर फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि इस हमले से वहां के ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई के जीवित होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं, अराघची ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहता है।

तनाव खत्म करने के लिए ईरानी शर्तें स्वीकार नहीं हैं

तेहरान में शनिवार को हुए हवाई हमले के बाद क्षतिग्रस्त एक इमारत से शहर के हालात देखता व्यक्ति।

कहां हैं सुप्रीम लीडर ?

ईरान के सुप्रीम लीडर सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अब तक कोई उन्हें सामने नहीं ला पाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि वह जीवित हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी भरा फैसला करना चाहिए।

ऊर्जा बाज़ार पर नज़र

ट्रंप ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, दुनिया को स्थिर तेल आपूर्ति की जरूरत है। इसी कारण रूस के तेल क्षेत्रों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दी गई है। ट्रंप के मुताबिक ये प्रतिबंध यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए गए थे और संकट समाप्त होने पर इन्हें फिर लागू किया जा सकता है।

हमें लगता है कि तेहरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर बात मनवाने के लिए लड़ाई जारी रखे हुए है। हम 'खार्ग द्वीप' पर फिर से बमबारी करेंगे - डॉनल्ड ट्रंप

ईरान किसी समझौते की भीख नहीं मांग रहा है। हम मजबूत हैं और अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हमें अमेरिकियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध जारी है। - अब्बास अराघची

ईरान बोला...

समझौते की भीख नहीं मांग रहे हैं: विदेश मंत्री

एएफपी, दोहा: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान किसी भी समझौते की भीख नहीं मांग रहा है। अपने लोगों की रक्षा करने का हमें हक है। बातचीत का सवाल ही कहां उठ रहा है। हम अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। यह जंग तभी खत्म होगी जब हमें यकीन हो जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी और हमें हुए नुकसान का हर्जाना दिया जाएगा। उन्होंने पिछले साल का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी इस्राइल ने हमला किया था और फिर अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया था। ईरान ने रविवार को उन देशों को चेतावनी दी जो अमेरिका और इस्राइल के साथ उसकी चल रही जंग में शामिल होने की सोच रहे हैं। अराघची ने कहा कि ये अलग बात है कि अगर अमेरिका-इस्राइल युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव आता है, तो तेहरान उस पर विचार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव कम करने के लिए बातचीत के प्रयासों का समर्थन करता है। अराघची ने कहा, हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन समझौता भी नहीं करेंगे।

अब्बास अराघची

ईरान की सेना की धमकी, नेतन्याहू का पीछा कर मारेंगे

ईरान की सेना ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को लेकर कड़ी धमकी दी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा है कि वह नेतन्याहू का पीछा करेगी और उन्हें "ताकत के साथ मार गिराने" तक कार्रवाई जारी रखेगी।

वायरल वॉर

इस्राइली पीएम ने कहा, देखिए 5 उंगलियां हैं...

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर फैल रही अपनी मौत की अफवाहों और 6 उंगलियों वाले दावे का मजाक उड़ाते हुए इन खबरों को पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें दोनों हाथ दिखाकर स्पष्ट किया कि उनके हाथों में सामान्य रूप से 5-5 उंगलियां हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'वे कहते हैं कि क्या मैं हूं?' जंग के बीच अफवाह फैलने लगी थी कि नेतन्याहू की मौत हो गई है।

AI Image

इस्राइली पीएम के 6 उंगलियों वाली अफवाहों के बीच सोशल साइट्स पर ऐसे मीम खूब शेयर हो रहे हैं।

इस्राइल का प्लान पता था: पूर्व CIA चीफ

पूर्व CIA प्रमुख और सेवानिवृत्त जनरल डेविड पेट्रेयस ने कहा है कि अमेरिका को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि इस्राइल ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने ईरान पर पहले हमला इसलिए किया ताकि उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हो जाए और वह इस्राइली हमले का प्रभावी ढंग से जवाब न दे सके। इस बयान से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहले की टिप्पणी को भी बल मिलता है। रुबियो ने कहा था कि अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि इस्राइल जल्द ही ईरान पर हमला करने वाला है और इसके बाद ईरान US ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी के चलते US ने पहले ही सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। (Aljazeera)

इस्राइल ने इस्फहान को निशाना बनाया, दावा-यहां बनती थीं मिसाइलें

■ एपी/एएफपी, तेहरान

इस्राइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों के बीच राजधानी तेहरान के बाद अब औद्योगिक शहर इस्फहान भी लगातार निशाने पर है। रविवार तड़के हुए हवाई हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में काला धुआं उठता दिखाई दिया। फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है।

इस्राइल बोला-सैन्य ठिकाने, फैक्ट्रियों को बर्बाद किया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के हमलों में ईरान के करीब 200 शहरों को निशाना बनाया गया है, जिनमें इस्फहान प्रमुख रूप से शामिल रहा है। तेहरान और मशहद के बाद यह ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा सैन्य केंद्र माना जाता है। यहां मिसाइल और रक्षा उत्पादन से जुड़े कई अहम प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिनकी वजह से यह शहर इस्राइली हमलों के केंद्र में आ गया है।

इस्राइली हमले के बाद रविवार सुबह इस्फहान शहर से धुआं उठता दिखा।

सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण शहर

इस्फहान सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण शहर है। 16वीं और 17वीं सदी की सफवीद वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाने वाला नक्श-ए-जहां स्क्वायर इसी शहर में स्थित है, जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। शहर के आसपास कई संवेदनशील प्रतिष्ठान भी मौजूद हैं। इनमें परमाणु अनुसंधान केंद्र, मिसाइल उत्पादन इकाइयां, एक बड़ी तेल रिफाइनरी और वायुसेना के ठिकाने शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार यहां एक प्रमुख एयरफोर्स बेस भी है, जहां ईरान के पुराने अमेरिकी निर्मित एफ-14 टॉमकैट लड़ाकू विमान तैनात बताए जाते हैं।

खाड़ी देशों पर एक साथ हमला
ईरान ने यूएई को अपने बंदरगाह खाली करने की चेतावनी दी

■ एपी/एएफपी, काहिरा

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच रविवार को खाड़ी देशों ने नए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की जानकारी दी। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने यूएई के तीन प्रमुख बंदरगाहों को खाली कराने की चेतावनी देते हुए अपने हमलों को और बढ़ाने की धमकी दी है।

ईरान का दावा, यूएई के बंदरगाहों से खार्ग पर हमला हुआ

ईरान ने आरोप लगाया, अमेरिका ने यूएई के बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल कर खार्ग द्वीप पर हमले किए, जहां से ईरान का प्रमुख तेल निर्यात होता है। हालांकि, यूएई ने इन आरोपों से इनकार किया है। बहरीन, सऊदी अरब और यूएई ने कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रही है। शहर के कुछ हिस्सों में ड्रोन लगातार दिख रहे हैं।



तेल अवीव में रविवार को ईरान की ओर से दागी गई प्रोजेक्टाइल से इमारत तबाह हो गई।

ईरान में अब तक 1300 मौतें

युद्ध के चलते कई देशों में मानवीय संकट गहरा गया है। रेड क्रॉस के अनुसार, ईरान में अब तक 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 202 बच्चे और 223 महिलाएं शामिल हैं। खाड़ी देशों में भी प्रवासी कामगारों सहित कई लोग हमलों की चपेट में आए हैं। हमलों के कारण लोगों में डर है।

इस्राइली ठिकाने ध्वस्त

ईरान की सेना ने रविवार को दावा किया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए इस्राइल के एक पुलिस यूनिट और सैटेलाइट संचार केंद्र को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले इस्राइल की विशेष पुलिस इकाई 'लहव 433' के मुख्यालय और 'गिलाट डिफेंस' सैटेलाइट संचार केंद्र पर किए गए।

फैक्ट चेक

ईरान-अमेरिका युद्ध में शेयर हो रहीं फेक इमेज

AI Image

AI Image



अमेरिका-इस्राइल और ईरान युद्ध में AI से बने डीपफेक वीडियो और इमेज ने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। न्यू यॉर्क टाइम्स ने इन फोटो और इनसे बनाए गए वीडियो को AI जेनरेटेड बताया है।

जाग लाडकी तेल लोड कर रहा था, UAE पोर्ट पर तभी हुआ हमला

File

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

सरकार ने रविवार को कहा कि पश्चिम एशिया के समुद्री इलाके में मौजूद भारतीय जहाजों और उन पर सवार लोगों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार ने कहा कि सभी लोग सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में इलाके में भारतीय जहाजों और उन पर मौजूद लोगों के बारे में कोई चिंताजनक घटना सामने नहीं आई है। सरकार ने कहा कि 14 मार्च को फुजैरा में भारतीय झंडे वाला जहाज जाग लाडकी कच्चा तेल लोड कर रहा था, उसी दौरान फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ था। 'रविवार को सुबह साढ़े 10 बजे यह जहाज फुजैरा से सुरक्षित निकल आया। यह भारत के लिए करीब 80800 टन क्रूड ऑयल ला रहा है। उस पर सवार सभी भारतीय लोग सुरक्षित हैं।' सरकार ने कहा कि भारतीय झंडे वाले दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी करीब 92712 टन LPG ला रहे हैं और 14 मार्च को ये होरमुज स्ट्रेट से इधर आ गए थे। 'अभी ये भारत की राह पर हैं और इनमें से एक 16 मार्च को मुंद्रा पोर्ट और दूसरा 17 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचेगा।' सरकार ने कहा कि अभी 22 भारतीय जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी तरफ हैं और उन पर 611 लोग हैं। शिपिंग महानिदेशालय जहाज मालिकों और भारतीय दूतावासों के जरिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शिपिंग महानिदेशालय ने अब तक खाड़ी इलाके से 276 भारतीयों को सुरक्षित लाने में मदद की है।

'होर्मुज के उस पार 22 भारतीय जहाज, सभी सेफ'

'पैनिक बुकिंग घटी, गैस की कमी नहीं है'

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: देशभर में LPG सिलिंडरों की भारी किल्लत की खबरों के बीच रविवार को सरकार ने कहा कि पैनिक बुकिंग घटने के संकेत हैं। बुकिंग्स पहले के 88.8 लाख रोजाना से घटकर करीब 77 लाख पर आ गई हैं। सरकार ने दोहराया कि देश में पेट्रोल-डीजल या रसोई गैस की कोई तंगी नहीं है। कमर्शल LPG के बारे में सरकार ने कहा कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों ने सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक नॉन-डोमेस्टिक LPG आवंटन के आदेश दिए हैं। कमर्शल सिलिंडर अब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सालभर बाद भी MSME की योजनाएं लागू नहीं

Akhilesh.Singh1
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते निर्यातकों को हो रही मुश्किलों को देखते हुए सरकार माल भेजने की बीमा लागत वहन करने सहित मदद के कई उपायों पर विचार कर रही है। दूसरी ओर, देश के कुल निर्यात में 45% से ज्यादा योगदान देने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जो 8 घोषणाएं की गई थीं, उनमें से केवल 2 को अब तक लागू किया जा सका है। संसद की एक नई समिति ने इस पर चिंता जताई है।

AI Image

संसद में पेश की गई रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि केवल MSME मिनिस्ट्री की अगुवाई वाली 2 योजनाएं लागू की जा सकी हैं, वहीं जिन 6 योजनाओं में यह मिनिस्ट्री सपोर्टिंग एजेंसी है, वे या तो ड्राफ्ट स्टेज पर हैं या अभी उन पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच बातचीत ही चल रही है।

AI के पास पायलटों की हो रही कमी
लंदन, पैरिस और यूरोप जाने वाली उड़ानों पर हो रहा असर

Maneesh.Aggarwal
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली: पहले पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने और फिर इस्राइल-अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से लंदन, पैरिस और यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइटों को और अधिक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस कारण एयर इंडिया के पास पायलटों की कमी होने लगी है। एयर इंडिया के पास पायलटों का जितना भी बफर था। धीरे-धीरे वह खत्म हो रहा है। इसके चलते एयर इंडिया ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से पिछले साल नवंबर में लागू एफडीटीएल नियमों में छूट मांगी है। ताकि वह दिल्ली और मुंबई समेत भारत के विभिन्न इंटरनैशनल एयरपोर्ट से अपनी लंदन, पैरिस और यूरोप के अन्य एक्स्ट्रा लॉन्ग रूट की फ्लाइटों को जारी रख सके।

File

सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया की इस जेनवन डिमांड पर डीजीसीए ने भी गंभीरता से गौर किया है और एयर इंडिया को नवंबर, 2025 में लागू दूसरे चरण के एफडीटीएल नियमों में कुछ छूट दी है। लेकिन यह छूट फिलहाल अप्रैल तक दी गई है। इस बीच एयर इंडिया के एक्स्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइटों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि असल में पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के बाद से एयर इंडिया को लंदन और पैरिस के लिए दो पायलटों की जगह तीन पायलट ले जाने पड़ रहे थे। लेकिन फ्रैंकफर्ट, कोपेनहेगन और विएना समेत यूरोप के अन्य देशों में जाने वाली फ्लाइटों में वह दो पायलटों से ही मैनेज कर रहा था।

इसमें पिछले साल नवंबर में लागू हुए एफडीटीएल के नए नियमों के बाद भी यह ऑपरेशन हो पा रहे थे। लेकिन अब युद्ध के बाद से मिडिल ईस्ट के कई देशों के बार-बार बंद हो रहे एयर स्पेस से फिर दिक्कत बढ़ गई है।

2022 के बाद की हुई थी सबसे बड़ी वीकली गिरावट

रेकॉर्ड गिरावट के बाद क्या संभलेगा शेयर मार्केट ?

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमले के बाद बने हालात में शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की। निफ्टी 5.3% टूट गया, जो जून 2022 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। ईरान से कच्चे तेल के निर्यात के प्रमुख केंद्र खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह बाजार में और कमजोरी आ सकती है। उनका कहना है कि इस समय बड़े निवेश से बचना चाहिए। क्रूड ऑयल पहले ही 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जबकि जनवरी में इसकी कीमत करीब 65-66 डॉलर थी।

AI Image



किधर जाएगा बाजार?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के अनुसार निफ्टी में 22900 के आसपास से कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं होने पर निफ्टी 22500 से 22000 के स्तर तक जा सकता है। फिलहाल 23500 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के वीपी अमोल अठावले के मुताबिक वीकली चार्ट पर लंबी बेयरिश कैंडल बनना बाजार के लिए नकारात्मक संकेत है। सेंसेक्स 73000 तक जा सकता है।

निवेशक क्या करें?

वेंचुरा के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर का कहना है कि मौजूदा गिरावट रीप्राइसिंग का मौका हो सकती है। चरणबद्ध निवेश करना बेहतर रहेगा। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार घरेलू खपत से जुड़े क्षेत्रों में चुनिंदा खरीदारी के अवसर बन सकते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों से ऊर्जा पर निर्भर क्षेत्रों पर दबाव बना रहेगा। बाजार में ठोस रिकवरी तभी आएगी, जब भू-राजनीतिक तनाव कम होगा और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता दिखाई देगी।

ब्रिटेन कर रहा मदद, जापान पर भी दबाव

■ एपी, दुबई: ब्रिटेन के ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड ने कहा कि वे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि ईरान परमाणु ताकत बने, लेकिन जलमार्ग को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। वहीं, उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची से युद्धपोत भेजने की मांग कर सकते हैं। हालांकि, जापान में इस पर राय बंटी हुई है। कुछ सरकारी सूत्रों का कहना है कि जापान खुद फैसला लेगा।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 1 Page: NBTGRBP User: atul.kumar1@timesofindia.com Time: 03-15-2026 21:54 Color:



NBT AI टाइम मशीन

आज है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस

आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, जब पहली बार बच्चों को 'दो बूंद जिंदगी की' यानी पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। सालों की मेहनत का ही नतीजा है कि 2014 में हमारा देश पूरी तरह पोलियो मुक्त हो गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि टीके सिर्फ पोलियो के लिए नहीं, हर जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी हैं। यह डॉक्टरों और नर्सों की मेहनत को सलाम करने का दिन है।

NBT Front Page-2

नवभारत टाइम्स। नई दिल्ली/एनसीआर सोमवार, 16 मार्च 2026

भविष्य में कैंसर की भी वैक्सीन होगी

ChatGPT के अनुसार, भविष्य में भारत में टीकाकरण पूरी तरह AI और उन्नत तकनीक पर आधारित होगा। लोगों के डिजिटल हेल्थ डेटा के आधार पर पर्सनलाइज्ड वैक्सीन दी जाएगी। नई बीमारियां सामने आते ही AI कुछ ही दिनों में उनके टीके बना देगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी प्रभावी टीके उपलब्ध होंगे। ड्रोन और स्मार्ट हेल्थ नेटवर्क दूरदराज इलाकों तक तुरंत टीके पहुंचाएंगे, जिससे महामारी फैलने का खतरा बहुत कम रह जाएगा।



AI Images

NBT सुंदरा

भीड़ का हिस्सा बनना उसकी फितरत नहीं। वह आज की नारी है, वह 'Gen She' है। IRA 2026 बिना दिखावे के। बिना किसी बनावट के। अपनी शर्तों पर जीने वाली निडर लड़कियां। **सुंदरता अब किसी की मोहताज नहीं।** हुनर और सौंदर्य की मिसाल बनें। **आज ही रजिस्टर करें।** वॉट्सऐप नंबर -7003990071

जंग पर ज़रूरी कदम उठा रही सरकार: RSS

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के समालखा में हुई। तीन दिन की इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और अप्रैल से जून तक होने वाले प्रशिक्षण वर्ग की योजना पर भी बात हुई।

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो। युद्ध कई कारणों से होते हैं। उन्होंने कहा कि संघ का विचार है कि युद्ध जितना जल्दी हो समाप्त होना चाहिए और लोगों का जीवन शांति से चले। उन्होंने कहा कि भारत और भारत के लोगों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और संघ का विश्वास है कि जो किया जा रहा है वह ठीक है।

> संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक पूरी

ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई की मौत पर भारत में हुए प्रदर्शनों के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर लोग शोक मनाना चाहते हैं, तो वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत की परंपरा है कि मृत्यु के बाद कोई शत्रु नहीं रहता।

Social Media

सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले (बाएं) बोले, हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो।

गायों को सड़कों पर न छोड़ें : सरकार्यवाह

सड़कों पर कई जगह दुर्घटना का कारण बन रहे गौवंश को लेकर संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि कुछ लोग अपनी गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमारा अनुरोध है कि ऐसे ना छोड़ें। घर पर नहीं रखना चाहते हैं तो गौशालाओं में पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लोगों को दिक्कत ना हो इसका इंतजाम स्थानीय प्रशासन करे, यही लोगों की उम्मीद रहती है।

'RSS मुस्लिम विरोध का संगठन नहीं'

क्या संघ के मुस्लिमों को लेकर विचार बदले हैं क्योंकि अब संघ एक ही DNA जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इस सवाल पर होसबाले बोले, जब हेडगेवार ने संघ की स्थापना की तब ये नहीं कहा कि मुस्लिम विरोध के लिए संगठन बनाया है। अंग्रेजों के जमाने में संघ पर बैन की बात आई तब असेंबली में डिबेट हुई। जिन्होंने संघ के समर्थन में बोला उनमें एक मुस्लिम भी थे।

जयशंकर दो दिन के दौरे पर बेल्जियम पहुंचे

■ **पीटीआई, नई दिल्ली:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन (EU) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत के लिए रविवार को ब्रसल्स (बेल्जियम की राजधानी) का दो दिवसीय दौरा शुरू किया। जनवरी में दोनों पक्षों के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौते पर मुहर लगने के बाद भारत की ओर से ब्रसल्स का यह पहला हाई लेवल दौरा है। ब्रसल्स में 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है।

अरावली परिभाषा: एक्सपर्ट कमिटी पर केंद्र सहमत

■ **पीटीआई, नई दिल्ली:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे 10 सदस्यीय हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसे अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा तय करने का काम सौंपा गया है। शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कमिटी के लिए सुझाए गए नामों का समर्थन किया है।

> 10 सदस्यों की कमिटी अरावली की समान परिभाषा तय करेगी

इस कमिटी में भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जुड़े मौजूदा और रिटायर्ड नौकरशाहों के साथ-साथ शिक्षाविद भी शामिल हैं।

प्रस्तावित कमिटी की अध्यक्षता इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की वर्तमान डायरेक्टर जनरल कंचन देवी करेंगी।

J&K: घुसपैठ नाकाम, पाकिस्तानी आतंकी ढेर

■ भाषा, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास सुरक्षा बलों ने रविवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने बताया कि इस दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया।

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा घुसपैठ की कोशिश के संबंध में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर 14-15 मार्च की दरमियानी रात को जनरल क्षेत्र बुच्छर, उरी सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। लिखा, सैनिकों ने एक आतंकवादी की संदिग्ध गतिविधि देखी। आतंकवादी को चुनौती दी गई। इसके बाद उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। उसके पास से AK राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद समेत युद्ध सामग्री बरामद की गई है।

FILE



ओडिशा में 11 नक्सलियों का सरेंडर

■ **पीटीआई, भवानीपटना (ओडिशा):** ओडिशा के कालाहांडी जिले में रविवार को 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें एक डिविजनल कमिटी सदस्य (डीसीएम) भी शामिल है, जिस पर 22 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने कहा, सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी।

असम सरकार ने चार उग्रवादी संगठनों से किए शांति समझौते

■ पीटीआई, गुवाहाटी

असम सरकार ने रविवार को तीन कुकी उग्रवादी संगठनों और एक हमार संगठन के साथ शांति समझौते पर साइन किए। सरकार का कहना है कि इन समझौतों के साथ राज्य में 'जातीय उग्रवाद' के एक दौर का अंत हो गया है। जिन संगठनों ने समझौते पर साइन किए, उनमें युनाइटेड कुकीग्राम डिफेंस आर्मी, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी लिबरेशन संगठन शामिल हैं। इसके अलावा 'हमार पीपल्स कन्वेंशन-डेमोक्रेटिक' ने भी सरकार के साथ समझौता किया। ये सभी संगठन 2012 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हथियार छोड़ चुके थे और 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौते पर साइन किए थे।

Social Media

सरकार ने उग्रवाद के दौरान मारे गए लोगों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया।

'समुदायों के लिए डिवेलपमेंट काउंसिल्स बनेंगी'

असम सरकार के अनुसार, इन शांति समझौतों के तहत कुकी और हमार समुदाय के लिए वेल्फेयर एंड डिवेलपमेंट काउंसिल्स का गठन किया जाएगा। इन काउंसिल्स का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा। इन काउंसिल्स के लिए जरूरी बजट का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसे काउंसिल अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर राज्य सरकार के परिवर्तन एवं विकास विभाग को मंजूरी के लिए भेजेगी।

पहाड़ों पर बर्फ, मैदान में गर्मी से राहत

शिमला और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे

- हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले गिरे।
- हिमाचल के कुल्लू, मनाली, लाहौल और जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग, श्रीनगर समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई।
- पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज से मैदानी इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हिमाचल में बारिश का यलो अलर्ट जारी है।

PTI

जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के साथ पर्यटकों में नया जोश।

एयर इंडिया कर्मियों ने फ्री टिकटें बेच दीं

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** एयर इंडिया के सैकड़ों कर्मचारियों ने सालभर में फ्री मिलने वाली 14 हवाई जहाज की टिकटों को बाहरी लोगों को अपने रिश्तेदार बताकर बेच डाला। जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एयर इंडिया ने कर्मचारियों पर भारी पेनल्टी की बात कही है। एयर इंडिया के कर्मचारियों को इंप्लाई लेजर ट्रैवल (ELT) पॉलिसी के तहत हर साल 14 फ्री एयर टिकट मिलती हैं।

> कंपनी बोली, कर्मचारियों पर भारी पेनल्टी लगाएंगे

अब फोटो छपवाने का मौका भी

खबरों का ज्ञान

रोज की खबरों पर कितनी पैनी नजर है, आजमाएं

1. इनमें से किस राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं?
   A. पंजाब B. केरल C. असम
2. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किसे भारत रत्न देने की मांग की है?
   A. कांशीराम B. मुलायम सिंह यादव C. रामविलास पासवान
3. जयशंकर दो दिन के दौरे पर किस देश पहुंचे?
   A. फ्रांस B. बेल्जियम C. जर्मनी
4. किस राज्य ने चार उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते पर साइन किए?
   A. मणिपुर B. नागालैंड C. असम
5. RSS के सरकार्यवाह कौन हैं, जिन्होंने खाड़ी में जंग के मद्देनजर सरकार के अप्रोच से सहमति जताई?
   A. मोहन भागवत B. दत्तात्रेय होसबाले C. भैय्याजी जोशी

कल के जवाब

A1 B. आर. वैशाली A2 B. खार्ग द्वीप A3 B.NSA A4 A. नागपुर A5 C. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी

लकी विनर्स

1. महक वर्मा, दिल्ली
2. खालिद नसीम, लखनऊ
3. दीपक गुप्ता, दिल्ली

ऐसे भेजें अपने जवाब

अपने नाम, शहर के साथ जवाब भेजें nbtreader@timesofindia.com पर, साथ में फोटो भी भेजें। सब्जेक्ट में KKG लिखें। हर दिन सभी सही जवाब देने वाले तीन चुनिंदा रीडर्स में से एक का फोटो और दो के नाम छापे जाएंगे। जवाब आज के पेपर की खबरों में ही छिपे हैं।

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | SHRIRAM Finance | IDFC FIRST Bank | BAJAJ AUTO CREDIT | L&T Finance | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans

*नियम और शर्तें लागू, बचत 31 मार्च 2026 तक लागू है.

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: DELHI: CENTRAL DELHI: Karol Bagh BAGGALINK BAJAJ 011-23550011/9910399106 • NORTH DELHI: Pitampura BAGGALINK BAJAJ 9910399107 • Budh Vihar, Rohini BAGGALINK BAJAJ 9910399108 • Rithala BAGGALINK BAJAJ 9910399115 • Mahipalpur BAGGALINK BAJAJ 9910399119/239 • Najafgarh BAGGALINK BAJAJ 9910399235 • Raja Garden SWADESHI BAJAJ 9210600907 • G.T. Karnal Road SWADESHI BAJAJ 9212110787 • Wazirpur SWADESHI BAJAJ 9250211944 • Zakhira SWADESHI BAJAJ 9250211933 • Narela GLOBAL BAJAJ 9311300688 • Peeragarhi GLOBAL BAJAJ 9311300695 • Bawana GLOBAL BAJAJ 9311300699 • Burari GLOBAL BAJAJ 9711998154 • EAST DELHI • South Ganesh Nagar GLOBAL BAJAJ 9319420888/9319431888. •Jagatpuri, Krishna Nagar Metro Station GLOBAL BAJAJ–9319421555 •KONDLI, Main Market-Global Bajaj -9319423555 • Shahdara-Durgapuri Chowk RRAG BAJAJ -7678440243 • Bhajan Pura RRAG BAJAJ 7678440309 • Jhilmil RRAG BAJAJ 9289303905 • WEST DELHI: Dwarka JSB BAJAJ 8882210730 • Uttam Nagar, Metro Pillar No. 753 JSB BAJAJ 8882212366 • Tilak Nagar, Metro Pillar No. 533 JSB BAJAJ 7827786351; RAJAPURI - 8882212339; • Raja Garden SWADESHI BAJAJ 40044444 /9210600907 • SOUTH DELHI: Khanpur GURU NANAK BAJAJ 9899140708, 9654561373 • Pul Prahladpur GURU NANAK BAJAJ 8851652946 • Okhla -Phase-II MADHUR BAJAJ 9289906219/8447431069 • Adchini-Aurbindo Marg MADHUR BAJAJ 9560208232 • Lajpat Nagar , Near Jal vihar Circle -MADHUR BAJAJ 9319198612 • Ayanagar -MADHUR BAJAJ 9319198611 * HARYANA: Gurgaon: JSB Bajaj :New Rly. Road: 7827786356; Sector 14 : 8882212365; Chakarpur: 8860099986; Manesar 7827786362: Pataudi 7827786354; ; Khandsa Road: 9355979205, Islampur : 9355979216; Sohna Road: 9355908502, 7838774480; Basai: 9218039153; Badshahpur: 9218039152; Wazirabad: 9355908530; Sec 18: 8860099943; Rewari: JSB Bajaj: Rewari - Delhi Rd 8295823621/9024761376 Faridabad: NIT,Railway Road :- GREEN BAJAJ 0129 -4036666, 9891020209 Old Faridabad Chowk 80764 05186; Bata Chowk 9873660066 ,Neharpar/ Kheri 9958273030, Pyali Chowk/Dabua - 99582 82112 • Ballabgarh: ARORA BAJAJ BALLABGARH: 7503000974/75 GAUNCHHI: 9069111729 VILL. TIGAON: 9873000517; SIKRI: 8178008100. • Palwal: VIDYA BAJAJ 9416636037, 01275-259233.• UTTAR PRADESH • Ghaziabad: SHIVA BAJAJ 8595167770 • Hapur: SHIVA BAJAJ 9760020028 • NOIDA SEC 6: SKYLINE BAJAJ 7065000365 • Noida SEC 63 KAY DEE BAJAJ 8750044099 • Greater Noida SKYLINE BAJAJ 7065000365 • Sahibabad: SHIVA BAJAJ 9311590335 • Meerut: • Pallavpuram BIKE ZONE BAJAJ 8527586748 Delhi Road: VIJETA BAJAJ 7302255106 • HARYANA Gurgaon: JSB Bajaj :New Rly. Road: 7827786356; Sector 14 : 8882212365; Chakarpur: 8860099986; Manesar 7827786362: Pataudi 7827786354; ; Khandsa Road: 9355979205, Islampur : 9355979216; Sohna Road: 9355908502, 7838774480; Basai: 9218039153; Badshahpur: 9218039152; Wazirabad: 9355908530; Sec 18: 8860099943; Rewari: JSB Bajaj: Rewari - Delhi Rd 8295823621/9024761376 Faridabad: NIT,Railway Road :- GREEN BAJAJ 0129 -4036666, 9891020209 Old Faridabad Chowk 80764 05186; Bata Chowk 9873660066 ,Neharpar/ Kheri 9958273030, Pyali Chowk/Dabua - 99582 82112 • Ballabgarh: ARORA BAJAJ BALLABGARH: 7503000974/75 GAUNCHHI: 9069111729 VILL. TIGAON: 9873000517; SIKRI: 8178008100. • Palwal: VIDYA BAJAJ 9416636037 01275-259233.

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 2 Page: NBTGRJK2 User: cci Time: 03-15-2026 22:55 Color:

टी20 वर्ल्ड कप से पहले काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुछ टीमें हिस्सा लेंगी या नहीं। ICC अध्यक्ष के तौर पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई टीम संगठन से बड़ी नहीं होती बल्कि सभी टीमों के साथ मिलकर ही संगठन चलता है। -जय शाह, चेयरमैन, ICC

19 बार शून्य पर आउट हुए हैं ग्लेन मैक्सवेल इंडियन प्रीमियर लीग में। वह लीग के इतिहास में सर्वाधिक बार बिना खाता खोले आउट होने वाले बैटर हैं

स्पोर्ट्स QUIZ

इस पेज पर छपी खबरों में ही इन सवालों का जवाब है।

1. इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट कौन हुआ है?
A) ग्लेन मैक्सवेल B) रोहित शर्मा C) दिनेश कार्तिक D) जहीर खान
2. पाकिस्तान के सरफराज खान ने कितने वनडे इंटरनैशनल मैच खेले हैं?
A) 54 B) 117 C) 61 D) 184

कल के जवाब
1. D) स्मृति मंधाना 2. B) एलेना रिबाकिना

लकी WINNER

1. दीपक गुप्ता, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
2. दिनेश वर्मा, प्रताप नगर, मुंबई
3. दीपिका चौधरी, मीरा रोड, मुंबई

आप अपने जवाब हमें **9319282367** पर अपने नाम, तस्वीर और टाउन/गांव के नाम के साथ वॉट्सऐप करें। एक 'लकी विनर' का नाम और तस्वीर हम कल के अंक में छापेंगे। दो अन्य विजेताओं के नाम भी प्रकाशित होंगे।

इस सीजन नंबर 1-2-3 करा देंगे हैदराबाद का सनराइज!

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम इन दिनों गलत वजहों से सुर्खियों में है। इंग्लैंड की लीग 'द हंड्रेड' लीग के ऑक्शन में सनराइजर्स के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को काफी पैसे देकर साइन किया है। इस विवाद का अंत क्या होगा यह नहीं पता, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन में हैदराबाद की टीम अपने सनराइज के बारे में सोच सकती है। टीम एक बार फिर दुनिया की सबसे खतरनाक त्रिमूर्ति के साथ उतरने जा रही है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रैविस हेड शामिल हैं। अभिषेक फिलहाल टी20I रैंकिंग्स के टॉप बैटर हैं जबकि ईशान दूसरे नंबर पर हैं। हेड नंबर-12 पर काबिज हैं। अगर इनका बल्ला लगातार बोला तो इस सीजन हैदराबाद का सनराइज होना तय है।

बैटिंग कार्निवल की तैयारी: अभिषेक-ईशान-हेड की त्रिमूर्ति जैसा टॉप ऑर्डर अभी किसी टीम के पास नहीं है। यह तीनों टी20 क्रिकेट में ऐसे बैटर हैं जो 200+ स्ट्राइक रेट से बैटिंग में विश्वास रखते हैं। इन तीनों का एक ही टीम में होना किसी 'बैटिंग कार्निवल' से कम नहीं है। अभिषेक की लय कुछ मैचों में गड़बड़ाई थी लेकिन उन्होंने अपनी पावर-हिटिंग के टॉप गियर को फिर से हासिल कर लिया है। ईशान भले ही नंबर-3 पर उतरें लेकिन वह रन स्पीड कम होने नहीं देंगे। पिछले कुछ मैचों से हेड की फॉर्म भले ही जैसी हो, उनकी मौजूदगी ही विपक्षी खेमे के लिए 'हेडेक' पैदा करने के लिए काफी होती है। सनराइजर्स की यह तिकड़ी 'अटैक-अटैक-अटैक' का समीकरण बनाती है। अभिषेक, ईशान और हेड की तिकड़ी का लक्ष्य पहले 6 ओवर्स में ही मैच को विपक्षी टीम की पहुंच से बाहर करना रहा है और इस सीजन में भी यही होगा।

IPL 2025 में SRH की ओर से टॉप पार्टनरशिप्स

जोड़ी	रन	विपक्षी
अभिषेक शर्मा-ट्रैविस हेड	171	PBKS
क्लासेन-अनिकेत वर्मा	99	MI
अभिषेक शर्मा-ट्रैविस हेड	92	KKR
ट्रैविस हेड-ईशान किशन	85	RR
ट्रैविस हेड-क्लासेन	83	KKR
ईशान-क्लासेन	83	KKR
अभिषेक-ईशान	82	LSG

NBT Lens खबरों के अंदर की बात

सबसे बड़ा सवाल

पिछले सीजन इस तिकड़ी के रहते हुए भी सनराइजर्स ने छठा स्थान हासिल किया था। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टीम के बैटिंग लाइन-अप की वेस्टइंडीज की टीम से तुलना करते हुए कुछ सवाल उठाए हैं। फाफ के मुताबिक, 'जब मैं टीम को देखता हूं, तो खुद से पूछता हूं कि मेरे विकेट लेने वाले बोलर कौन हैं? कप्तानी के नजरिए से, मैं गेंद किसे थमाऊंगा? जाहिर है, पैट कमिंस दिखता है, इसलिए वह तो मुख्य विकल्प है ही, लेकिन उनके अलावा, शेष गेंदबाज कौन हैं? ऐसे कौन से दो या तीन गेंदबाज हैं जिन पर मैं डेथ ओवर्स में पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं और जो मुझे पावरप्ले में विकेट दिलाएंगे?' जाहिर है, सनराइजर्स के पास बोलिंग में चिंताएं होंगी। ऐसे में उनके बैटर्स को विपक्षी बोलर्स पर हावी होना होगा और हर मैच में बड़े स्कोर बनाने होंगे या टारगेट का पीछा करना होगा।

जब मैं सनराइजर्स को देखता हूं, तो मुझे टी20 वर्ल्ड कप वाले वेस्टइंडीज की याद आती है। इस टीम के पास एक बेहद दमदार बैटिंग लाइन-अप है। -फाफ डुप्लेसिस, पूर्व कप्तान, साउथ अफ्रीका

प्राइवेट प्लेन से खेलने जाएगी इराकी टीम

एजेंसियां, बगदाद: इराक फुटबॉल असोसिएशन के प्रमुख अदनान दिरजाल ने संडे को कहा कि उनकी नैशनल टीम 31 मार्च को मेक्सिको के मोंटेरी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले-ऑफ में हिस्सा लेगी। अमेरिका-इस्राइली हमले शुरू होने और ईरान के आस-पास के दूसरे देशों पर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करके जवाबी हमला करने के बाद 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट का एयरस्पेस बंद है। सफर में आने वाली दिक्कतों के बावजूद इराक टीम प्राइवेट प्लेन से मेक्सिको जाएगी, जिससे पहले ही सभी प्लेयर्स को जरूरी प्लेऑफ के लिए वीजा दे दिया गया है। दिरजाल ने कहा, 'इन्फेंटीनो (फीफा अध्यक्ष) ने मैथियास ग्राफस्ट्रॉम (फीफा महासचिव) को हमारी टीम के मेक्सिको जाने में मदद करने और सभी मुश्किलों को दूर करने का निर्देश दिया है। टीम इस सप्ताह एक निजी प्लेन से रवाना होगी।'

वॉर का असर

ईरानी विमिंस टीम की तीन प्लेयर लौटेंगी वतन

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री टोनी बर्क ने संडे को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए शरणार्थी वीजा स्वीकार करने वाली ईरान की विमिंस फुटबॉल टीम की तीन और सदस्यों ने अपने वतन लौटने का फैसला किया है। ईरान की महिला टीम की सात सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया के शरण लेने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन इनमें से अब तीन सदस्य ही ऐसी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहने का फैसला किया है।

पाक के पूर्व कप्तान सरफराज रिटायर

एजेंसियां, कराची: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर-बैटर सरफराज अहमद ने संडे को इंटरनैशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह भारत के खिलाफ खेले गए ICC टूर्नामेंट के फाइनल में जीत दिलाने वाले पाकिस्तान के एकमात्र कप्तान रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20I खेले तथा तीनों फॉर्मेट में कुल 100 मैचों में टीम की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने साल 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जबकि साल 2006 में उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जिताया था। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें भविष्य में टेस्ट टीम का हेड कोच भी बना सकता है।

सरफराज

इटली के एंटोनेली ने रेस जीतकर रचा इतिहास

फॉर्मूला-1 रेस, चीन ग्रां प्री

2 दूसरे सबसे युवा ड्राइवर हैं किमी एंटोनेली फॉर्मूला-1 रेस जीतने वाले

एएफपी, शंघाई: मर्सिडीज के ड्राइवर किमी एंटोनेली ने चीन ग्रां-प्री में दिग्गजों को पछाड़ते हुए रेस जीत ली। इसके साथ ही वह फॉर्मूला-1 वन के इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के विजेता बन गए। इटली के 19 वर्षीय किमी पोल पोजिशन से शुरुआत करने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर थे। रेस की शुरुआत में कुछ समय के लिए फरारी के लुईस हैमिल्टन ने बढ़त बनाई, लेकिन जल्द ही एंटोनेली आगे निकल गए। इसके बाद पूरी रेस पर उनका ही कंट्रोल रहा। सीजन की शुरुआत में मर्सिडीज के लिए यह एक और पहले-दूसरे स्थान वाला प्रदर्शन रहा। एंटोनेली के साथी जॉर्ज रसेल ने दूसरा स्थान हासिल किया। लुईस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। फरारी के लिए यह लंबे समय में पहला ग्रां-प्री पोडियम स्थान रहा। किमी से कम उम्र में ग्रां-प्री जीतने वाले एकमात्र ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन हैं, जिन्होंने साल 2016 में जब अपनी पहली जीत हासिल की थी, तब उनकी उम्र 18 साल थी। एंटोनेली इटली के सबसे युवा एफ-1 विजेता ड्राइवर हैं।

मेरे पास शब्द नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे रोना आ रहा है। -किमी एंटोनेली



बहरीन, सऊदी रेस रद्द

शंघाई: फॉर्मूला-1 और उसकी संचालन संस्था फिया ने कहा है कि ईरान युद्ध से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण अप्रैल में बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली ग्रां-प्री रेस नहीं होंगी। यह घोषणा शंघाई में चीन ग्रां-प्री से पहले की गई। एफ-1 ने कहा, 'वॉर की स्थिति के कारण बहरीन और सऊदी अरब ग्रां-प्री अप्रैल में नहीं होंगी।'

कुलदीप ने वंशिका के साथ लिए सात फेरे

एजेंसियां, देहरादून: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव शनिवार को उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में बसे मसूरी में अपनी मंगेतर वंशिका सिंह के साथ विवाह बंधन में बंध गए। शहर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध होटल 'द सेवॉय' में आयोजित यह समारोह पारंपरिक रस्मों और उत्सवी माहौल के बीच देर रात तक चलता रहा। विवाह समारोह में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, फील्डिंग कोच टी दिलीप और सुरेश रैना शामिल हुए और नवदंपती को शुभकामनाएं दीं।

कुलदीप और वंशिका

टी20 सीरीज, पहला मैच

साउथ अफ्रीका ने ली सीरीज में बढ़त

एजेंसियां, माउंट माउंगानुई: एनकोबानी मोकोएना (3/26) की बदौलत साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पांच मैच की टी20I सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से हरा दिया। मेजबान कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन टीम सिर्फ 91 रन पर आउट हो गई। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 20 गेंद शेष रहते 93 रन बना दिए।



एनकोबानी

गुलवीर ने हाफ मैराथन में बनाया नैशनल रेकॉर्ड

एजेंसियां, नई दिल्ली: भारत के गुलवीर सिंह ने न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस हाफ मैराथन (21 किमी) का नैशनल रेकॉर्ड तोड़ दिया। इस धावक ने 59 मिनट 42 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। साउथ अफ्रीका के एड्रियन वाइल्डश्रुट (59:30) पहले और अमेरिकी धावक कूपर लत्जी 59:41 के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

गुलवीर सिंह

वहीं, भारत के सेल्वा प्रभु (17.05 मीटर) ने अमेरिका में चल रही एनसीएए इंडोर ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता।

फटाफट खबरें

अचीवर्स को पोलो कप

नई दिल्ली: जयपुर पोलो ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स ने थंडरबोल्ट्स को 9-5 से हराकर आदित्य बिड़ला पोलो कप 2026 का खिताब जीता। साढ़े सात मिनट के चार चक्करों वाले इस मुकाबले में अचीवर्स की शुरुआत से ही पकड़ मजबूत रही।

तलवार की जीत

अहमदाबाद: भारतीय गोल्फर रायक तलवार ने आखिरी राउंड में दो-अंडर 70 का स्कोर बनाकर दो शॉट से डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के इडोरामा वेधर्स ओपन जीत लिया। रायक का कुल स्कोर 10-अंडर 278 का रहा।

केर की तूफानी पारी

वे ओवल: न्यूजीलैंड (190/7) और साउथ अफ्रीका (110/7) की विमिंस क्रिकेट टीमों के बीच पहले टी20I में मेजबान टीम ने 80 रन से जीत हासिल की।

मैक्स के नाम हुआ रेकॉर्ड, आर्सेनल की जीत

केवल 16 साल के हैं मैक्स डॉमैन

एजेंसियां, लंदन: आर्सेनल के 16 वर्षीय विंगर मैक्स डॉमैन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने एवर्टन के खिलाफ अपनी टीम की 2-0 की जीत में गोल किया। उन्होंने 16 साल और 73 दिन की उम्र में यह गोल करके नया रेकॉर्ड बनाया। मैक्स ने पिछले साल नवंबर में सबसे कम उम्र में चैंपियंस लीग में खेलने का रेकॉर्ड बनाया था। तब उनकी उम्र 15 साल और 308 दिन थी। मैक्स अभी स्कूल में हैं। आर्सेनल ने इस जीत से अंक तालिका में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

फुटबॉल कॉर्नर

रियाल मैड्रिड की जीत

बार्सिलोना: एल्चे पर 4-1 की जीत के साथ रियाल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी बार्सिलोना के करीब पहुंच गया है। इस जीत के साथ मैड्रिड के 28 मैच में 66 अंक हो गए हैं, जबकि बार्सिलोना के 27 मुकाबलों में 67 अंक हैं।

भारत का मैच कोच्चि में

कोच्चि: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब एक दशक बाद भारतीय सीनियर मेंस फुटबॉल टीम का मैच खेला जाना है। भारतीय फुटबॉल टीम 31 मार्च को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ एएफसी एशियन कप सऊदी अरब 2027 क्वॉलिफायर फाइनल राउंड का अपना आखिरी मैच खेलेगी। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

इस साल पहली बार हारे अल्काराज

इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट

एजेंसियां, इंडियन वेल्स: रूस के डेनियल मेदवेदेव ने कार्लोस अल्काराज को 6-3, 7-6 से हराकर इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही अल्काराज की इस साल की 16 मैचों की जीत का सिलसिला भी टूट गया और उन्हें साल की पहली हार का सामना करना पड़ा। अल्काराज ने इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन और कतर ओपन के खिताब जीतते हुए लगातार 16 मैच जीते थे। मेदवेदेव अब खिताबी मुकाबले में इटली के यानिक सिनर से भिड़ेंगे। सिनर ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ सिनर पहली बार इंडियन वेल्स के फाइनल में पहुंचे हैं।



AP

कार्लोस अल्काराज जैसे खिलाड़ी के खिलाफ आप कई मैच खेलते हैं और कई हारते हैं। वह एक शानदार खिलाड़ी है, जिनके शॉट्स, डिफेंस, अटैक, रिटर्न सब अच्छे हैं। ऐसे में आपको अपना बेस्ट देना होता है। -डेनियल मेदवेदेव

12 राशियां और आपका दिन

ARIES 21 Mar - 19 Apr
राज्य से विशेष सम्मान प्राप्त हो सकता है। आज दशम प्रमुख केंद्र राज्य लक्ष्मी भाव में चंद्रमा का प्रबल योग बन रहा है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। रात 9 बजे तक कोई खास डील फाइनल हो जाएगी। महत्वाकांक्षी में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। समाज में शुभ व्यय से कीर्ति बढ़ेगी।

TAURUS 20 Apr - 19 May
आज आपका ध्यान नई योजनाओं में लगेगा। किसी टेक्नोलॉजी की वजह से मन को सुकून मिलेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। कानूनी विवाद में सफलता, स्थान परिवर्तन की योजना सफल हो सकती है। दिन के उत्तरार्ध में उलझनों के बावजूद फायदा की वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष मंगलमय परिवर्तन होगा।

GEMINI 21 May - 21 Jun
आज का दिन काफी रचनात्मक है। किसी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक काम को पूरा करने में आप दिन बिता सकते हैं। जो काम आपको सबसे प्रिय है आज वही करने को मिलेगा। आज आपको रिलैक्स करने में मदद मिलेगी और मानसिक रूप से संतुलन बना रहेगा। नई योजनाएं भी दिमाग में आएंगी।

CANCER 22 Jun - 22 Jul
आज का दिन वैसे तो काफी व्यस्त रहने वाला है, लेकिन धर्म अध्यात्म के मामले और पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेना ही अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें।

LEO 23 Jul - 22 Aug
आज का दिन वैसे तो काफी व्यस्त रहने वाला है, लेकिन धर्म अध्यात्म के मामले और पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेना ही अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें।

VIRGO 23 Aug - 22 Sep
आज आपको वाणी व्यवहार में संयम व सावधानी बरतें। आसपास के लोगों से टकराव की नौबत न आए इस बात का ध्यान रखें। किसी शुभ मंगल कार्य की चर्चा हो सकती है और परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। भाग्य पर भरोसा रखें और आत्म विश्वास के साथ कार्य करें। शाम में स्थिति में और भी सुधार होगा।

LIBRA 23 Sep - 22 Oct
आज का दिन आपके लिए लाभकारक है। कार्य व्यवसाय से जुड़े सभी विवाद आज सुलझ सकते हैं। नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ काम शुरू हो सकता है, जिससे भविष्य में लाभ के योग बनेंगे। जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक और आसपास के लोग कुछ परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सतर्कता बनाए रखें। शाम का समय परिवार वालों के साथ बिताएं।

SCORPIO 23 Oct - 21 Nov
भारी हालात को ले तो आज का दिन काफी मजबूत है। दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए कार्यशील रहें और समय का सही उपयोग करें। परिवार में सुख शांति और स्थिरता का आनंद उठाएं। नौकरी या व्यापार में कुछ नवीनता ला सके तो आगे चलकर लाभ होगा। काम में नई जान आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

SAGITTARIUS 22 Nov - 21 Dec
आज का दिन सावधानी और सतर्कता का है। बिजनेस के मामले में थोड़ा सा जोखिम उठाएं तो बड़ा लाभ होने की आशा है। रोजमर्रा के कामों से परे कुछ नए कामों में हाथ आजमाएं। किसी आने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ सकता है। नया मौका आपके आसपास ही है।



CAPRICORN 22 Dec - 19 Jan
आज का दिन सामान्य है। भागीदारी में किया व्यापार काफी फायदा पहुंचाएगा। रोजमर्रा के घरेलू कामों को निपटाने का आज सुनहरा मौका है। हो सकता है आज आपको पुत्र-पुत्री के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना पड़े। ईमानदारी और निर्धारित नियमों का ध्यान रखें। धैर्य बनाए रखें।

AQUARIUS 20 Jan - 18 Feb
आज आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का दिन है। खान पान में लापरवाही न करें। व्यापार के मामले में दिन सुखद व्यतीत होगा और कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भूल हो सकती है, इसलिए हर काम सोच समझ कर करें। मित्रों से सहयोग मिलता रहेगा।

PISCES 19 Feb - 20 Mar
आज का दिन लाभदायक रहेगा। व्यापार में जोखिम उठाने का परिणाम आज हितकर होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परेशानियों को धैर्य और अपने मृदु व्यवहार से सुधार कर ठीक किया जा सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर आप वह सब कुछ पा सकते हैं, जिसकी आपको अभी तक कमी रही है। किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता कर सकें तो शुभ रहेगा और पुण्य की प्राप्ति होगी।

क्या कहते हैं आपके नंबर
(16 मार्च - 22 मार्च 2026)

(आचार्य नंदिता पांडे)

मूलांक 1
(जन्म तिथि 1, 10, 19, 28)
प्रेम संबंध में समय अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में बेचैनी बढ़ेगी एवं प्रोजेक्ट पूर्ण होने में कठिन होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण में खट्टा मीठा समय रहेगा एवं धन वृद्धि तभी होगी जब आप लगातार इस तरफ प्रयास करते रहेंगे।

मूलांक 2
(जन्म तिथि 2, 11, 20, 29)
प्रेम संबंध में समय अनुकूल रहेगा एवं कोई आगे बढ़ कर आपकी लव लाइफ में आपकी मदद कर सकता है। आर्थिक धन लाभ की प्रबल स्थितियां बनती जाएंगी एवं निवेशों द्वारा फायदे होंगे।

मूलांक 3
(जन्म तिथि 3, 12, 21, 30)
प्रेम संबंध में आपसी प्रेम सुदृढ़ होता जाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ के बेहतर और सुंदर भविष्य के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सुख समृद्धि प्राप्त होगी लेकिन आपकी अपेक्षाओं से कम होगा।

मूलांक 4
(जन्म तिथि 4, 13, 22, 31)
कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी एवं साझेदारी में किए गए कार्यों द्वारा भी आपको सफलता हासिल होगी। प्रेम संबंध में आपसी प्रेम सुदृढ़ होता जाएगा व आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का मन बना सकते हैं।

मूलांक 5
(जन्म तिथि 5, 14, 23)
इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में किसी एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। सप्ताह के मध्य में सुख समृद्धि के शुभ संयोग भी बनते जाएंगे। प्रेम संबंध में आपसी प्रेम सुदृढ़ होगा। इस सप्ताह आर्थिक मामलों में कोई आपको धोखा भी दे सकता है।

मूलांक 6
(जन्म तिथि 6, 15, 24)
इस सप्ताह संयम के साथ किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप आपके जीवन में कष्ट लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में कोर्ट कचहरी के मामले आपके लिए कष्ट बढ़ा सकते हैं।

मूलांक 7
(जन्म तिथि 7, 16, 25)
इस सप्ताह की शुरुआत में सुख समृद्धि के शुभ संयोग बन रहे हैं एवं लव लाइफ में सुखद अनुभव रहेगा। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध में सुकून है और अपने जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने का मन बना सकते हैं।

मूलांक 8
(जन्म तिथि 8, 17, 26)
प्रेम संबंध में समय अनुकूल होता जाएगा एवं लव लाइफ में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने जीवनसाथी के साथ शॉपिंग मूड में रहेंगे एवं घर की साज सज्जा के लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में व्यय अधिक रहेंगे एवं इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

मूलांक 9
(जन्म तिथि 9, 18, 27)
कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी एवं मान सम्मान भी बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी धन लाभ रहेंगे एवं किसी नए निवेश द्वारा भी धन वृद्धि के संयोग बनते जाएंगे।

सुडोकू

2								4
		9		5		6		
		6	3		8	9		
	4		5		9		3	
	2			7			1	
	1		8		3		7	
		7	1		4	5		
		2		9		1		
1								8

कल के सुडोकू का जवाब

8	6	7	2	5	3	4	1	9
4	1	5	9	6	8	3	2	7
9	3	2	7	4	1	6	5	8
5	9	8	6	7	2	1	4	3
3	7	6	1	9	4	2	8	5
1	2	4	8	3	5	9	7	6
7	8	9	4	2	6	5	3	1
6	4	3	5	1	7	8	9	2
2	5	1	3	8	9	7	6	4

TELEVISION big magic



09:00	बबलू डबलू
10:00	बड़बुध बुड़बक
11:00	रुद्र के रक्षक
12:00	चक्रधारी अजेय कृष्णा
12:30	हम पांच
13:00	रुद्र के रक्षक
13:30	भ से भाई
14:00	चक्रधारी अजेय कृष्णा
15:00	लिटिल कृष्णा
17:00	बबलू डबलू
18:00	चक्रधारी अजेय कृष्णा

कल का पंचांग
(मंगलवार, 17 मार्च 2026)

राष्ट्रीय मिति फाल्गुन 26, शक संवत 1947, चैत्र कृष्ण, त्रयोदशी, मंगलवार, विक्रम संवत 2082। सौर चैत्र मास प्रविष्टे 4, रमजान 27, हिजरी 1447 (मुस्लिम), तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मार्च 2026 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, बसंत ऋतु। राहु काल अपराह्न 3 बजे से 4 बजकर 30 मिनट तक। त्रयोदशी तिथि सुबह 9 बजकर 23 मिनट तक के बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ। शतभिषा नक्षत्र अगले दिन सुबह 6 बजकर 9 मिनट तक उपरांत पूर्वभाद्रपद नक्षत्र का आरंभ। सिद्ध योग सुबह 8 बजकर 15 मिनट तक के बाद साध्य योग का आरंभ। वणिज करण सुबह 9 बजकर 23 मिनट तक वणिज करण प्रातः 09 बजकर 23 मिनट तक के बाद शकुनि करण का आरंभ। चंद्रमा दिन रात कुंभ राशि पर संचार करेगा। आज के व्रत त्योहार भौम प्रदोष व्रत, फाल्गुन 1844 से। वारुणी योग।

जन्मदिन की शुभकामनाएं

वर्ष के स्वामी सूर्य और मंगल ग्रह बने हैं। राशि से बारहवें घर में शनि मंगल, बुध का त्रिग्रही योग मार्च के शेष दिनों में आपको कुछ बड़े खतरे व जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। अप्रैल से लेकर मई अंत तक किसी राजकीय विवाद का अंत हो जाएगा। जून से जुलाई के मध्य कई प्रकार की समस्याएं उठकर समाप्त हो जाएंगी। अगस्त से लेकर सितंबर तक अपने व्यवसाय, कारोबार को लेकर कुछ कष्ट होगा। अक्टूबर से नवंबर में कुछ परिवार के मामले हल हो सकते हैं। दिसंबर से जनवरी 2027 में मित्रों की सहायता से काम काज में मायूसी खत्म होगी। फरवरी में किसी पर्यटन यात्रा का आनंद उठाएंगे। इसलिए जिन स्थानों पर नहीं गए हैं, वहां जाने की योजना बना सकते हैं। मार्च के अंत तक किसी नए कार्य क्षेत्र की योजनाएं बनेंगी। महिलाओं के लिए वर्ष जीवन स्तर को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। घर परिवार के सदस्यों की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। त्रिग्रही योग की शांति के लिए श्री मृत संजीवनी जाप सवा लक्ष कराएं। पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को चार खाड़ी के चौमुख पत्ते रख दें। सुंदरकांड का पाठ करते रहें, इससे मन में शांति रहेगी।

-आचार्य कृष्ण दत्त शर्मा

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Faridabad Edition: 2 Page: NBTFRFP User: cci Time: 03-15-2026 22:39 Color:

नई दिल्ली > सोमवार, 16 मार्च 2026 > फाल्गुन 25, शक संवत 1947, चैत्र कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2082

WATCH GOD WATCHDOG

वर्ष 80, संख्या 63 > पेज 16* > फरीदाबाद > मूल्य ₹3.50 या ₹8.50* द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित www.nbt.in

*मासिक खरीद पर ही लागू

शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव और वंशिका

▶ खेल पेज

NBT नवभारत टाइम्स

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001205474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com पर जाएं।

कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए: राहुल गांधी

▶ p2

22 मार्च को बाइक रैली में आ रही हैं आप?

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर NBT गुड़गांव में लाया है आपके लिए ऑल वुमन बाइक रैली में शामिल होने का मौका। अगर आपके पास स्कूटर या बाइक है तो आप भी रजिस्ट्रेशन कराकर वुमन बाइक रैली का हिस्सा हो सकते है। आज ही करा लें रजिस्ट्रेशन।

▸▸ देखें फरीदाबाद टाइम्स

ऐसे बनें हिस्सा
7003890071 पर AWBR लिखकर Whatsapp करें

जगह: लेजर वैली, कंक्रीट पार्किंग, सेक्टर-29, गुड़गांव

तारीख: संडे 22 मार्च 2026

NBT ALL WOMEN BIKE RALLY 2026

मौसम

अधिकतम तापमान 30.1°

18.7° न्यूनतम तापमान

सूर्यास्त 6:30 सोमवार | सूर्योदय 6:29 मंगलवार

उत्तराखंड की पहाड़ियों पर रविवार को हल्की बर्फबारी हुई।

*12 + 4 FaridabadTimes

बंगाल 2 चरण में, बाकी जगह सिंगल फेज़

5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल समेत पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में चुनाव होगा, जबकि यहां पिछली बार आठ चरणों में मतदान हुआ था। बाकी चारों राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश) में और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। अलग-अलग राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर भी नौ अप्रैल और 23 अप्रैल को उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सभी राज्यों की विधानसभा सीटों और उपचुनाव पर मतगणना 4 मई को होगी।



ज्ञानेश कुमार

बंगाल में पिछली बार 8 चरण में हुआ था मतदान

चुनावों की घोषणा के साथ ही इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। असम में 126 विधानसभा सीट, केरल में 140, पुडुचेरी में 30 और तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने बताया कि पांचों राज्यों में 17 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीट हैं। दो लाख 19 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और मतदान कराने के लिए 25 लाख चुनाव अधिकारियों को लगाया गया है।

▸▸ पेज 2

9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में होगा चुनाव

23 अप्रैल को तमिलनाडु में 234 सीटों पर वोटिंग

23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोटिंग, पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे में 142 पर मतदान

सभी जगह 4 मई को आएंगे चुनावी नतीजे

असम में फिर बनेगी BJP सरकार: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी असम में अब तक के सबसे बड़े जनादेश के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। युवा सम्मेलन में शाह ने कहा, हर घुसपैठिए की पहचान कर देश से बाहर भेजा जाएगा। कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, बीजेपी सरकार उन्हें वोटिंग लिस्ट से हटाने और देश से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुजारी-मुअज्जिन का बंगाल में बढ़ा भत्ता

चुनावों की घोषणा से ठीक पहले प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुअज्जिनों (मस्जिदों में अजान देने वाले) के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ममता ने कहा, मुझे खुशी है कि 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। अब हर महीने ₹2,000 मिलेंगे। पुजारियों और मुअज्जिनों ने जो नए आवेदन पूरे नियमों के साथ जमा किए थे, उन्हें भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है।

ईरान की सख्त चेतावनी, होर्मुज़ खुला रहेगा, सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद

■ एएफपी, तेहरान

ईरान ने रविवार को अमेरिका और इस्राइल के साथ जारी संघर्ष के बीच अन्य देशों को युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला है। सिर्फ हमारे दुश्मनों के जहाजों के लिए बंद है, जो हम पर हमला कर रहे हैं। दावा किया है कि नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस्राइली पीएम नेतन्याहू को ढूंढकर मारने की धमकी दी। कहा कि बच्चों का हत्यारा अगर जीवित है, तो पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मार देंगे। ईरान के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 'एपस्टीन से जुड़ा नेटवर्क' 9/11 जैसे हमले की साजिश रच रहा है।

ड्रोन हमला इस्राइल के तेल अवीव में रविवार को ईरान ने हमले किए।

ट्रंप ने कहा- ईरान से समझौता नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह फिलहाल ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तक जो शर्तें सामने आई हैं, वे काफी नहीं हैं। वहीं, ईरान ने कहा, हम मजबूत हैं। हमें अमेरिकियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है।

वॉर अपडेट्स

- भारत का टैंकर 'जग लाडकी' UAE के फुजैराह से 80,800 टन कच्चा तेल लेकर निकला।
- जंग के बीच ईरान की महिला फुटबॉल टीम की तीन और सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का फैसला किया।
- फॉर्मूला वन ने युद्ध के कारण बहरीन और सऊदी में अप्रैल में होने वाली रेस रद्द की
- ईरान में हमले जारी, अब तक 202 बच्चों और 223 महिलाओं ने गंवाई जान
- संघर्ष के कारण ईरान, UAE, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और बहरीन में CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द ▸▸ पेज 9

हादसे में पांच घायल

फरीदाबाद-पलवल में रफ्तार का कहर, 3 की मौत

■ **टीम NBT:** फरीदाबाद और पलवल में रविवार को हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद के सूरजकुंड में तेज रफ्तार लैंड रोवर डिफेंडर सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई, जिससे अनंगपुर निवासी मयंक भड़ाना (24) की मौत हो गई। वहीं पलवल में अल्लापुर फ्लाईओवर के पास टाटा पंच कार ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार संदीप और नरवीर की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए।

▸▸ फरीदाबाद टाइम्स

पड़ताल: दुकानों में मिले घरेलू सिलिंडर

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली में कमर्शल LPG सिलिंडर की किल्लत से रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी-पटरी वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनबीटी के रिएलिटी चेक में सामने आया कि ढाबे-रेहड़ी वाले घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि घरेलू गैस के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कमी के चलते ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। 14 किलो का घरेलू सिलिंडर 2200 से 3500 रुपये तक में बिक रहा है। वहीं, कमर्शल सिलिंडर की सप्लाई बाधित होने से छोटे कारोबारियों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

▸▸ पेज 5

NBT रिएलिटी चेक

दिल्ली में कई जगह कमर्शल की जगह घरेलू सिलिंडर यूज हो रहा।

फटाफट खबरें

NHAI का एनुअल पास हुआ महंगा

NHAI का एनुअल पास महंगा कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसकी फीस में 75 रुपये का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के साथ यह 3,075 रुपये हो गया है। यह नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी।

उरी में घुसपैठ हुई नाकाम, आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया, इलाके में तलाशी जारी है। सैनिकों को मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।

▸▸ पेज 10

KISS

Organisation in Special Consultative Status with the United Nations Economic & Social Council (UN-ECOSOC)

KALINGA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES (KISS)

Bhubaneswar, Odisha, India

A home for 80,000 Tribal children

KISS HUMANITARIAN AWARD 2025

16th March 2026

PAST RECIPIENTS

- **Mr. Bill Gates**
  Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, and Co-Founder & former CEO of Microsoft **(2023)**
- **Her Excellency Mama Rachel Ruto, EGH**
  First Lady of the Republic of **Kenya (2022)**
- **Mr. Ratan Naval Tata,**
  Chairman Emeritus, Tata Sons **(2021)**
- **Dr. Ary S Graça**
  President-International Volleyball Federation (FIVB) **(2020)**
- **Dr. Dansa KOUROUMA**
  President, National Transition Council of Guinea, **Guinea (2019)**
- **Professor Muhammad Yunus**
  (Nobel Laureate)
  Founder, Grameen Bank, **Bangladesh (2018)**
- **His Holiness The 14th Dalai Lama**
  Nobel Laureate, 2005 and Spiritual Leader **(2017)**
- **Ms. Ashley Judd,**
  Hollywood Actor, Activist & Global Goodwill Ambassador, **UNFPA (2016)**

Smt. Nita M. Ambani, Founder and Chairperson, Reliance Foundation receiving the prestigious **KISS Humanitarian Award 2025**

AWARDEES ARE FROM

5 Continents | **13** Countries | **2** Nobel Laureates *among the awardees*

Chief Guest: Prof. Mohan Munasinghe, Nobel Laureate from Sri Lanka

• **KISS Humanitarian Award**
Founded by Dr. Achyuta Samanta, Founder, KIIT-KISS-KIMS

• **Watch Live** on **Kalinga TV** from **5.00 p.m.** onwards

- **His Excellency Dr Alejandro Toledo,**
  Former President of **Peru (2015)**
- **Ms. Anne F. Stenhammer**
  Former Regional Programme Director, UN Women, **South Asia Regional Office (2014)**
- **Madam Albina Du Boisrouvray**
  Founder, Association François-Xavier Bagnoud (FXB International), **Switzerland (2013)**
- **His Excellency Lyonchhen Jigmi Y. Thinley**
  Hon'ble Prime Minister, The Royal Government of **Bhutan (2012)**
- **Rt Hon. Lord Nicholas Addison Phillips**
  President (Chief Justice) of the Supreme Court of the **United Kingdom (2011)**
- **Rt. Hon. Sir Anerood Jugnauth**
  Eminent Social Worker & His Excellency the President of **Mauritius (2010)**
- **Dr. Ham Kee-Sun**
  Eminent Educationist & Physician and Hon'ble President & Founder, Hanseo University, **South Korea (2009)**
- **Ms. Edna Bomo Molewa**
  Noted Social Worker & Hon'ble Cabinet Minister, Social Development, South Africa National Assembly, **South Africa (2008)**

The KISS Humanitarian Award is a prestigious annual international award conferred by the Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) in Bhubaneswar, India, conceptualized and the brainchild of visionary humanitarian and educationist Prof. Achyuta Samanta, Founder of KIIT, KISS & KIMS. The award was initiated in 2008 to recognize and felicitate individuals for their exemplary and distinguished service to humanity across the globe.

www.kiss.ac.in | www.kiit.ac.in | www.achyutasamanta.com | facebook.com/kissfoundation | facebook.com/KIITUniversity | facebook.com/achyutasamanta

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 1 Page: NBTGRP2 User: cci Time: 03-15-2026 22:19 Color:

राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज़ हुई सियासी घेराबंदी

क्रॉस-वोटिंग और विधायकों की टूट-फूट रोकने की तैयारी

Hemwati.Rajaura1
@timesofindia.com

File

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं।

■ नई दिल्ली : राज्यसभा की 11 सीटों के लिए सोमवार को होने वाले मतदान से ठीक पहले बिहार, हरियाणा और ओडिशा में सियासी हलचल तेज हो गई है। संभावित क्रॉस-वोटिंग और विधायकों की टूट-फूट रोकने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है।

देशभर में इस बार राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब बिहार की पांच, ओडिशा की चार और हरियाणा की दो सीटों पर मतदान होना है। नतीजे भी सोमवार को ही घोषित होंगे।

ओडिशा में चौथी सीट पर दिलचस्प मुकाबला: ओडिशा में चार सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। विधानसभा में बीजेपी के 79 विधायक हैं और पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा सांसद सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है। बीजेडी ने पूर्व CM नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी संतृप्त मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। चौथी सीट को लेकर मुकाबला सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को समर्थन दिया है, जबकि बीजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ. दत्तेश्वर होता को समर्थन देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, संभावित क्रॉस-वोटिंग को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को पारादीप के एक रिसॉर्ट में ठहराया है। वहीं, कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बेंगलुरु के पास एक रिसॉर्ट में रखा है, ताकि मतदान से पहले किसी तरह की टूट-फूट से बचा जा सके। दूसरी ओर, बीजेडी ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए सख्त रणनीति अपनाई है। पार्टी के सभी विधायकों को पिछले तीन दिनों से हर शाम भुवनेश्वर स्थित नवीन पटनायक के आवास में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए हैं।

बिहार में पांचवीं सीट पर नजर

बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव है, जहां संख्याबल के आधार पर NDA चार सीटें आसानी से जीत सकता है। NDA के पास विधानसभा में कुल 202 विधायक हैं, जबकि एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट की जरूरत है। NDA के CM नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, जिससे राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। BJP के नितिन नवीन, JDU के रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा भी उम्मीदवार हैं। विपक्षी महागठबंधन की ओर से RJD के मौजूदा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जिसमें RJD, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। हालांकि, मुकाबला पांचवीं सीट पर दिलचस्प हो गया है, जहां फैसला अब ओवैसी की पार्टी AIMIM के पांच विधायकों के समर्थन पर टिका है। इनके समर्थन से समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि, AIMIM के अख्तरुल ईमान से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं, BSP के एकमात्र विधायक पर भी सबकी नजरें हैं।

हरियाणा में भी मुकाबला रोचक

हरियाणा में दो सीटों के लिए चुनाव है। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं। पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध को भी पार्टी और सहयोगियों के समर्थन से पर्याप्त वोट की उम्मीद है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नांदल को बीजेपी के करीबी के तौर पर देखा जाता है और पिछले चुनावों में कांग्रेस को क्रॉस-वोटिंग का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे इस बार भी राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है। इस वजह से कांग्रेस के कुछ विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया है।

उप जिलाधिकारी दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरणानुसार मत्स्य पालन हेतु तालाब/पोखर/जीलवाला एवं जल प्रणालियों के 10 वर्षीय आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों के नीलामी द्वारा राजस्व संहिता नियमावली-2016 व माo उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2026 दिन सोमवार, को तहसील दादरी सभागार में सुबह 11 बजे नीलामी की जायेगी-

क्रम सं0	ग्राम का नाम	तालाब की खसरा सं0	क्षेत्र है0 में
1	बढ़पुरा	690	0.3410
		466	0.2782
2	राजपुर	331	0.2780
3	नूरपुर	542	1.176
4	धनुआस	38	0.3290
5	शाहपुर खुर्द	163	0.329
			1.733
6	फूलपुर	130	0.2280
		226	0.265
7	बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती	476	0.2400
8	कोट	524क	0.2150
		526	0.4430
		800	0.658
		818	0.2280
		1272	0.2020
9	जंगला चमक	2	0.4170
		138 ख	0.6510
		324ख मि	0.3670
10	जंगला नैनसुख	107	0.2280
		122	0.3290
		224	0.7680
11	बील अकबरपुर	495	0.2660
		500	0.2340
12	कैमराला चक्रसैनपुर	36	0.3290
13	छौलस	987क	0.4370
14	चचकली रामगढ़	252क	1.303
		335	1.341
15	आनन्दपुर	145 ख	0.9110
17	समाउद्दीनपुर	672	0.632
18	कचेड़ा वारसाबाद	573ख	0.202
19	बिसाहड़ी	321	0.228
20	लतनपुर	388	0.4550
		398	0.2020
		426	0.5310
		587	0.5310
21	सादोपुर	720	0.3040
		888	0.4930
22	रसूलपुर जागीर	349	0.4050
		318क	0.4930
23	पटाड़ी	298	0.7970
		365	0.2280
		414	0.5150
		594	0.7460
24	रानौली लतीफपुर	277ख	0.202
		277S	0.202
		322क	0.202
		322ख	0.202
		76	0.3040
25	जैतवारपुर	613	0.9540
26	चिटेहरा बुजुर्ग	382	1.0750
		333	1.0240

नीलामी की शर्ते:-
1. तालाब यथा स्थिति में नीलाम होंगे।
2 पट्टा आवंटन हेतु खुली बोली प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जिसमें माo उच्च न्यायालय।
3. इलाहाबाद के आदेश व राजस्व संहिता नियमावली-2016 को आधार मानते हुए, सर्वोच्च बोलीदाता को पट्टा आवंटन किया जायेगा।
4. बोली पूर्व जमानत धनराशि जमा करनी होगी, अन्तिम रूप से अधिक बोली वाले बोली दाता की धनराशि समायोजित करते हुए शेष बोली दाताओं की धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
5. यदि उपनियम (4) के अन्तर्गत तैयार की गयी पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक है तब मौके पर ही नीलामी करायी जायेगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। यदि उपरोक्त पट्टा के लिये केवल एक व्यक्ति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि, जो प्रति एकड़ दर रू0 1,000 से कम और रू0 2,000 से अधिक नहीं होगी, पर दिया जायेगा।
6. तालाबों की नीलामी हेतु बोली की शुरूआत 10,000/- रू0 प्रति है0 की दर से की जायेगी।
7. नीलामी का अंतिम निर्णय उपजिलाधिकारी, दादरी का मान्य होगा। नीलामी से सम्बन्धित समस्त जानकारी, शर्ते एवं दशायें रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील दादरी / मत्स्य विभाग विकास भवन के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
8. अन्य शेष शर्तें उ0प्र0 राजस्व संहिता नि0-2016 के अन्तर्गत मान्य होंगी।
9. 2. है0 अथवा उससे बड़े जल क्षेत्र के तालाबों हेतु मत्स्य प्लान का उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
नोट-यदि अपरिहार्य कारणों से निश्चित तिथि को अवकाश रहता है अथवा बोली नहीं लगाई जाती है, तो बोली की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जायेगी तथा पट्टा आवंटन का लक्ष्य प्राप्ति तक बोली की प्रक्रिया प्रत्येक माह की उक्त निर्धारित तिथि पर की जायेगी।

UPID 248238 dt 14.03.2026,
www.upgov.nic.in

उप जिलाधिकारी
दादरी

CEC ने कहा- पांच राज्यों के 824 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में 17.4 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं

मिड टर्म जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को

■ NBT रिपोर्ट

ज्ञानेश कुमार

निर्वाचन आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव हिंसा या प्रलोभन से मुक्त होने चाहिए और आयोग किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। किसी भी पात्र मतदाता को हटाया नहीं जाना चाहिए और किसी भी अपात्र मतदाता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पांच राज्य विधानसभाओं के 824 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां 25 लाख चुनाव अधिकारी ड्यूटी पर तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा की जनसंख्या के बराबर है।

CEC बोले, किसी भी पात्र मतदाता को हटाया नहीं जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 20 देशों के चुनाव निकायों के प्रतिनिधि भारत के लोकतंत्र के उत्सव का अनुभव प्राप्त करने के लिए चुनाव वाले राज्यों का दौरा करेंगे। कुमार ने बताया कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या 750-900 है।

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में एक मिड टर्म जनमतसंग्रह के रूप में देखा जा रहा है। इन राज्यों के चुनाव परिणाम जब निकलेंगे तो इससे पांच राष्ट्रीय संदेश भी निकलेंगे। उनके बारे में बता रहे हैं नरेन्द्र मिश्र...

1 फ्रीबीज कल्चर कितना प्रभावी

यह चुनाव फ्रीबीज कल्चर की भी दिशा तय करेगा। पिछले कुछ चुनावों से इसका व्यापक असर दिखा। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में फ्रीबीज बंटे और सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ मिला। इस बार भी इन राज्यों में सत्तारूढ़ सरकार ने खूब पैसे बांटे। अगर इस बार भी इसका असर चुनाव परिणाम पर दिखा तो आने वाले चुनाव में यह ट्रेंड और बढ़ेगा।

2 कांग्रेस पार्टी के लिए मेक या ब्रेक

पांच राज्यों का चुनाव कांग्रेस के लिए मेक या ब्रेक का चुनाव है। 2024 आम चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के तुरत बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों में जिस तरह एक के बाद एक हार मिली उसके बाद पार्टी की रणनीति पर सवाल उठे। सहयोगियों ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया। असम, केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है और केरल में बड़ी सहयोगी दल के रूप में सरकार बनाने की उम्मीद में है। अगर इस बार भी कांग्रेस उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी तो राहुल गांधी और पार्टी की रणनीति पर गंभीर सवाल उठेंगे, साथ ही आगे की राह और कठिन हो जाएगी।

5 राज्यों में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या 750-900 है।

3 BJP का कठिन पिच पर आखिरी दांव

2024 आम चुनाव में उम्मीद से नीचे प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी ने बाद के महीनों में विधानसभा चुनावों में जीत से शानदार सियासी वापसी की। लेकिन, इस बार हालात कुछ अलग हैं। पांच राज्यों में तीन राज्य-तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ऐसे हैं जहां बीजेपी ने पूरी ताकत लगायी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी की हसरत भी रही कि इन राज्यों में सत्ता में आए या सियासी की धुरी में रहे जहां उनके स्वाभाविक कदम नहीं रहे हैं। आम चुनाव में भी नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चुनावी रैलियां की थी लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। अगर इस बार भी अच्छे परिणाम नहीं आए तो यहां भविष्य के लिए काडर का मनोबल प्रभावित हो सकता है।

4 चुनावी सुधार को लेकर तय होगा रुख

पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव ऐसे समय हो रहा है, जब विपक्षी दलों का चुनाव आयोग से टकराव चरम पर है। सारा विवाद एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुआ। जाहिर है कि चुनाव के बीच भी इसकी गूंज सुनाई देगी और जिस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं उसे देखते हुए इस टकराव की दिशा भी तय होगी।

5 I.N.D.I.A. और NDA के लिए भी लिटमस टेस्ट

कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने-अपने गठबंधन का अगुवा दल है। लेकिन, इस चुनाव में तमिलनाडु में दोनों दलों को छोटी भूमिका में सीमित रखना होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस लेफ्ट का साथ छोड़कर अकेले लड़ेगी। चुनाव परिणाम दोनों गठबंधन के कुनबों को भी प्रभावित करेंगे। अगर कांग्रेस अपने दम पर केरल और असम में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल नहीं रही तो गठबंधन में पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाएगी जिसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। उसी तरह गठबंधन के सहारे दक्षिण में विस्तार की योजना में लगी बीजेपी के लिए भी खासकर तमिलनाडु में अहम होगा।

असम में BJP लगा पाएगी हैटट्रिक?

Poonam.Pandey
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : असम में बीजेपी की कोशिश लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी की है, वहीं कांग्रेस अपनी जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। यहां CM हिमंता बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच काफी वक्त से खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं तो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे विवादित पोस्ट भी किए, जिन्हें बाद में डिलीट करना पड़ा।

File

बीजेपी घुसपैठ को बना रही है मुद्दा।

सरमा कुछ समय से अपने भाषणों और बयानों में बार-बार 'मियां मुस्लिम' को टारगेट कर रहे हैं। असम की करीब 22 सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने असम जाकर कहा कि अगर आप घुसपैठ रोकना चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का समर्थन करें। कांग्रेस यहां सामाजिक सुरक्षा से लेकर बेरोजगारी, आर्थिक विकास का मुद्दा भी उठा रही है। कांग्रेस यहां बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा रही है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन भी हैं।

असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था।

बंगालः कितना असर दिखाएगा SIR और घुसपैठ का मुद्दा?

Poonam.Pandey
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी थी। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर जहां बंगाल की राजनीति दिल्ली तक पहुंची, वहीं घुसपैठ के मसले पर बीजेपी नेताओं ने तृणमूल पर तीखे हमले किए। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए जहां अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई है, वहीं बीजेपी के लिए भी ये करो या मरो की जंग है।

बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी ये करो या मरो की जंग है।

File

पश्चिम बंगाल का ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई है।

क्या है चुनावी मुद्दे?

कानून-व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा के साथ ही बीजेपी अवैध घुसपैठ को यहां बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप जड़ रही है और वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बीजेपी जहां बेरोजगारी, उद्योगों की खराब स्थिति की बात कर रही है साथ ही कह रही है कि यहां की खराब स्थिति की वजह से युवा पढ़ने और नौकरी करने के लिए यहां से पलायन कर रहे हैं।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार के कामों की बात कर रही है, साथ ही बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बना रही है और केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी यह कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं का बंगाल के लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है।

ये है अहम पार्टियां?

यहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस यहां 2011 से लगातार सत्ता में है। 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी राज्य की मुख्य विपक्षी ताकत बनकर उभरी। इसके अलावा वाम मोर्चा और कांग्रेस भी मैदान में होगी।

पिछले चुनाव का नतीजा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी को 77 सीटें मिलीं।

क्या त्रिकोणीय मुकाबले से बदलेगा तमिलनाडु में सियासी समीकरण?

Hemwati.Rajaura1
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से डीएमके और अन्नाद्रमुक के बीच ही सीमित रही है, लेकिन इस बार अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) की सक्रियता ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मतदाताओं के सामने दो से अधिक विकल्प होने के कारण पारंपरिक रुझानों से हटकर मतदान की संभावना है।

File

CM एम.के. स्टालिन

CM एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार सत्ता में वापसी की कोशिश में है। सत्ताधारी डीएमके ने कांग्रेस समेत आठ दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बनाई है, जिससे वह अपने जनाधार को और मजबूत करना चाहती है। मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व के संकट से जूझता नजर आ रहा है। ऐसे में टीवीके की एंट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति को संभावित त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है।

केरल में लेफ्ट के सामने आखिरी दुर्ग बचाने की चुनौती

Hemwati.Rajaura1
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां इस समय वामपंथी दलों की सरकार है। 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। आगामी चुनाव में एलडीएफ के सामने अपने इस सियासी दुर्ग को बचाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) करीब एक दशक से चल रहे सत्ता के वनवास को खत्म करने की कोशिश में जुटा है।

पुडुचेरी में बरकरार रहेगा NDA का दबदबा या वापसी करेगा विपक्ष? : 30 सीटों वाली इस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में इस बार भी मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच माना जा रहा है। एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन की सरकार सत्ता में है, जबकि इंडियन नैशनल कांग्रेस कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वापसी की कोशिश में जुटे हैं।

PM ने पत्र में की ओम बिरला की सराहना

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनकी सराहना की गई है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोक सभा अध्यक्ष के व्यवहार का जिक्र करते हुए लिखा कि आपने जिस संयम, संतुलन और निष्पक्षता के साथ इन परिस्थितियों का सामना किया वह सराहनीय है।

पीएम मोदी ने पत्र में इस बात पर दुख जताया कि कुछ लोग 'परिवारवादी और सामंती' सोच के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने सीमित दायरे में रखना चाहते हैं और नए नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि कि संसद 'संवाद, तर्क और विचार-विमर्श' का केंद्र है, जहां हर क्षेत्र की आवाज को स्थान मिलना चाहिए। ओम बिरला ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं के प्रति उनका हमेशा अटूट विश्वास रहा है।

पत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के व्यवहार का जिक्र किया।

इसके बाद लोक सभा में सभी दलों के नेताओं को भेजे एक पत्र में बिरला ने कहा कि सभागृह और संसद भवन परिसर के अंदर जिस प्रकार के बैनर, प्लेकार्ड और तख्तियों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह का आचरण किया जा रहा है, यह सभी के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति पर हम सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गंभीर चिंतन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है।'

उन्होंने लिखा है कि हमारे आचरण को पूरा देश देखता है। देश की समस्त लोकतांत्रिक संस्थाओं में संदेश जाता है। समय आ गया है जब अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं की उच्च गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गंभीर चिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।

पहचान की अपील

आम जनता को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम: नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः लगभग 25-35 साल, कदः 5'5'', लिंगः पुरुष, रंगः गोरा, पहनावाः नीले रंग की पैंट, काले रंग की बेल्ट गोल्डन स्टार पैटर्न वाली बकल के साथ, काले रंग की पट्टियों वाली हरे रंग की शर्ट पहने है, **बरामदगी स्थलः** जो शाहबाद दौलतपुर, शाहबाद डेयरी, दिल्ली स्थित डीटीयू के पीछे, खेरा नहर में मृत अवस्था में पाया गया।

इस सम्बंध में **डीडी नं. 72ए, दिनांक 08.03.2026, थानाः शाहबाद डेयरी, दिल्ली** में दर्ज है। यदि इसके बारे में कोई सुराग या जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना निम्नलिखित पते पर दें।

थानाध्यक्ष
थानाः शाहबाद डेयरी, दिल्ली
फोनः 8053281269, 8527127706

DP/3322/ON/2026

कांशीराम के लिए मायावती, राहुल गांधी ने मांगे भारत रत्न

■ भाषा, लखनऊ/नई दिल्ली : बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र की बीजेपी नीत सरकार से पार्टी संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने में अधिक विलंब ना करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न नहीं देने की कांग्रेस की गलती को न दोहराये।



राहुल गांधी

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को भारत रत्न सम्मान देने की गुजारिश की। मायावती ने बीएसपी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने में विलंब ना करने की मांग की।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर रखी अपनी मांग।

शाह बोले- असम में मिलेगा बड़ा जनादेश

■ भाषा, गुवाहाटी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम में 15 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सेवा बजट से प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये अपनी जेब में डाल लिए।



अमित शाह

असम में 2,092 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम करती है। उन्होंने राज्य की चिकित्सा सुविधाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के बराबर लाने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले असम की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था बदहाल थी।

शाह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हासिल करके सत्ता बरकरार रखेगी। शाह ने यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोगों से एक बार फिर बीजेपी को जिताने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि हर घुसपैठिए को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा।

बंगाल में चुनाव से पहले ममता ने मानदेय बढ़ाया

■ भाषा, कोलकाता : विधानसभा चुनावों की की तारीखों की घोषणा से कुछ घंटे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को 'एक्स' पर पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि, प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का मार्च से भुगतान करने की घोषणा की। संशोधन के बाद, पुरोहितों और मुअज्जिनों को अब प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। बनर्जी ने कहा, 'वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, मार्च 2026 से आरओपीए 2009 के तहत मिलने वाली महंगाई भत्ता राशि का बकाया मिलना शुरू हो जाएगा। यह बकाया वेतन और भत्ते का संशोधन 2009 से संबंधित है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पुरानी मांग है। इसमें शिक्षकों, नगर पालिका और पंचायत कर्मचारियों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों के वेतन और भत्ते शामिल हैं।'



ममता बनर्जी

डेंगू-मलेरिया के खिलाफ MCD का महाभियान, स्टाफ को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

Rajesh.Saroha
@timesofindia.com

AI image

■ नई दिल्ली : दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम (MCD) के पब्लिक हेल्थ विभाग ने अभी से कमर कस ली है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए विभाग ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत सीजन की शुरुआत से पहले दिल्ली के सभी 12 जोनों और मुख्यालय में तैनात करीब 4652 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि जमीनी स्तर पर तैनात स्टाफ इन बीमारियों के नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उन्हें तकनीकी और व्यावहारिक रूप से ट्रेंड करना अनिवार्य है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान फील्ड स्टाफ को मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि कैसे घरों के कूलर, पानी की टंकियां, गमलों की प्लेटें, पुराने टायर, खुले डिब्बे, बोतलें और निर्माण स्थलों पर जमा पानी मच्छरों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बनते हैं। साथ ही स्टाफ को इन बीमारियों के लक्षणों और नियंत्रण की बारीकियों से भी अवगत कराया जाएगा ताकि वे फील्ड में जाकर आम जनता को प्रभावी ढंग से जागरूक कर सकें।

लोगों को दिया जाएगा विशेष कार्ड: पब्लिक हेल्थ विभाग इस बार 'डेंगू होमवर्क कार्ड' योजना पर विशेष जोर दे रहा है, जो बीमारियों की रोकथाम में बेहद कारगर साबित हुई है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मचारी घर-घर जाकर नागरिकों को एक विशेष कार्ड सौंपेंगे। इस कार्ड में साप्ताहिक आधार पर किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों की सूची होगी।

लोगों से की गई खास अपील: स्वास्थ्य विभाग ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास जलभराव न होने दें। कूलर का पानी हर सप्ताह बदलें, पानी की टंकियों को हमेशा ढककर रखें। इसके अलावा मच्छरदानी, मच्छररोधी क्रीम और पूरी बाजू के कपड़े पहनने की सलाह भी दी गई है।

स्पीकिंग ट्री रिट्रीट

योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी के सान्निध्य में

गंगा किनारे, हिमालय की गोद में आत्म अनुभव के योग, ध्यान, मौन और आध्यात्मिक जागरूकता का दिव्य संगम। चार दिवसीय इस रिट्रीट में होगा ऊर्जा, संतुलन और आंतरिक शांति का संचार। **योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी** के मार्गदर्शन में यह यात्रा आपके जीवन को नया आयाम दे सकती है। स्वस्थ एकांत रहना और तीन वक्त का भोजन शामिल है।

स्थान: परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

तिथि: 27 से 30 मार्च 2026

शुल्क मात्र ₹12,999 प्रति व्यक्ति

सीटें सीमित हैं, आज ही पंजीकरण करें!

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल करें या अपनी डिटेल व्हाट्सऐप पर भेजें।

9910475909

NBT नवभारत टाइम्स | रंगमंच

'अपना घर आश्रम' के 12वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुईं सीएम

बूढ़पुर आश्रम तक बनेगी सड़क: CM

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को बूढ़पुर स्थित 'अपना घर आश्रम' के 12वें वार्षिकोत्सव और संस्था के रजत जयंती समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने आश्रम की ओर से पिछले 26 वर्षों से बेसहारा और असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए संस्था की सराहना की और समाज के लिए इसे प्रेरणादायक पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अपना घर आश्रम' जैसे संस्थान समाज के उन लोगों के लिए आशा का केंद्र बनते हैं जो किसी कारणवश परिवार और समाज से अलग हो जाते हैं।

> CM ने कहा, 'अपना घर आश्रम' मानवता और करुणा का जीवंत उदाहरण

संस्था द्वारा न केवल ऐसे लोगों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है, बल्कि उन्हें मेडिकल केयर, खाना, कपड़े और देखभाल जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मान के साथ जीवन देने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अपना घर आश्रम' ने सेवा का एक व्यापक अभियान खड़ा किया है, जिसके अंतर्गत आज भारत में 70 से अधिक केंद्र संचालित हो रहे हैं, जबकि विदेशों में भी इसकी सेवाएं निरंतर विस्तार पा रही हैं।

रेखा गुप्ता ने संस्था के कामों से प्रभावित होकर आश्रम को उनके विकास और संचालन से जुड़ी प्रशासनिक समस्याओं, डॉक्टरों की उपलब्धता और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के समाधान में दिल्ली सरकार पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्रम तक पहुंचने वाली सड़क के निर्माण के लिए भी जरूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस मौके पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया, नरेला से विधायक राजकरण खत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेता श्याम जाजू सहित संस्था से जुड़े अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सीएम ने बुजुर्गों से मुलाकात की और निस्वार्थ सेवा के लिए संस्था की सराहना की

गैस लीक होने से मासूम की मौत

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

> मयूर विहार फेज-3 का मामला, गाजीपुर पुलिस मामले की कर रही जांच

> खेलते खेलते गिर गई थी सना, जो नहीं बच पाई। बड़ी बहन भी हो गई थी बेहोश

मयूर विहार फेज-3 में रविवार दोपहर एलपीजी सिलिंडर लीक होने के कारण ढाई साल की एक बच्ची बेहोश हो गई। परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। फिलहाल गाजीपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद राहिद मयूर विहार फेज-3 में आशीर्वाद अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 162 में रहते हैं। परिवार में उनकी 30 वर्षीय पत्नी परवीन खातून, साढ़े सात साल की बड़ी बेटी रफिया खातून है, जबकि छोटी बेटी ढाई साल की सना खातून थी। मो राहिद ने बताया कि वह राजबीर कॉलोनी गली नंबर 10 में सिलाई का काम करते हैं। सुबह वह काम पर चले गए थे। दोपहर को पत्नी अपने कमरे में सो रही थी। जबकि रफिया और सना कमरे में ही खेल रही थी। अचानक सना खेलते-खेलते कमरे में गिर गई। फिर रफिया भी बेहोश हो गई। पत्नी की नींद खुली तो देखा दोनों बेटी बेहोश है और पूरे कमरे में काफी तेज गंध आ रही थी। गैस सिलिंडर देखा तो उससे लगातार गैस निकल रही थी। वह दोनों बेटियों को लेकर घर के बाहर निकली और पड़ोसी से मदद मांगी। उनके पिता राहिद को सूचना दी गई। वह भी 10 मिनट में घर पहुंच गए। बड़ी बेटी की हालत में तो सुधार आया। मगर छोटी बेटी सना बेहोश रही। उसे लेकर तुरंत नोएडा स्थित मेट्रो अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस वाले भी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

सना का फाइल फोटो

दिल्ली की खबरों के लिए टेलिग्राम पर फॉलो करें
t.me/nbtdilli

लाल बहादुर सदन में किया पौधरोपण

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने रविवार को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लाल बहादुर सदन में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में आवासीय कल्याण समिति के सदस्यों और निवासियों ने भाग लिया। चहल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी आह्वान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित है। RWA के सदस्यों, स्थानीय निवासियों ने भाग लिया।

रिश्वत लेने के आरोप में ASI पकड़ा

AI image


■ NBT रिपोर्ट, गीता कॉलोनी

गीता कॉलोनी थाने में दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने रेड डालकर एक एएसआई को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। आरोपी एएसआई का नाम रोहताश है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। अब गीता कॉलोनी थाने के एसएचओ पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है।

डीसीपी (विजिलेंस) के मुताबिक, इस केस में एएसआई की गिरफ्तारी के बाद उसे निलंबित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की मानें तो एएसआई ने एक शख्स को झूठे केस में फंसाने और इस केस में उसका बचाव करने की एवज में उससे रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने रिश्वत देने से पहले दिल्ली पुलिस विजिलेंस की टीम को सूचना दे दी। टीम ने जाल बिछाया और जब एएसआई ने पीड़ित से मांगी गई रिश्वत के 15 हजार रुपये लिए, तभी विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया।

FOR SALE

OF LOTUS HOTEL AT NATIONAL HIGHWAY-1, SECTOR-62, KUNDLI, SONEPAT, HARYANA

It is hereby notified that Hotel property in the name Lotus Hotel (Approx 61500 sq.ft.) super Area, at prime location of National Highway-1, Sector-62, Kundli, Sonepat, Haryana consisting of Two Banquet Halls, One Restaurant, Swimming Pool, Forty Two Rooms, Reception Area, Kitchen Area and 35 earmarked car parking and approx. 3000 sq. ft. area for storage in B1(basement) is FOR SALE. For Prior Appointment please contact us on these numbers

Mr. O.P. Mittal - 9811082709
Mr. Rajinder Bansal - 9810819360

ड्रग रैकेट के 4 बदमाश अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : इंटरस्टेट ड्रग रैकेट से जुड़े गैंग के 4 बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। इनकी पहचान सलमान खान, विपिन कुमार पाल, अब्दुल रहमान उर्फ रेहान और रवि गर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 8 किलोग्राम से अधिक (59925 से अधिक) गोलियां और नशे के 2000 इंजेक्शन बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।

> 59925 गोलियां और नशे के 2000 इंजेक्शन बरामद

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि 7 मार्च को मोनिका विहार के विपिन कुमार पाल पटियाला के सलमान को 8 किलो अल्प्राजोलम की टैबलेट के साथ पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने 13 मार्च को मुजफ्फरनगर में छापेमारी कर अब्दुल रहमान और रवि गर्ग को दबोच लिया। पुलिस को इनके पास से इंजेक्शन के 80 बॉक्स (2000 इंजेक्शन) बरामद किए।

दो इंस्पेक्टर लाइन हाज़िर

■ NBT रिपोर्ट, भारत नगर : भारत नगर में हुई हत्या के केस में आपत्तिजनक कमेंट करने पर नॉर्थ वेस्ट जिले के दो इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू कर दी गई है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे एक विडियो में एक पुलिस अधिकारी के कुछ बयान हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नारकोटिक्स और दूसरे अपराधों में शामिल अपराधियों को पॉलिटिकल प्रेशर में आकर छोड़ा जाता है। ऐसे में यह साफ किया जाता है कि पब्लिक से बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर राजीव, ATO अशोक विहार (जो रेगुलर SHO के तौर पर SHO भारत नगर का काम देख रहे थे, छुट्टी पर थे) ने कुछ गैर-जिम्मेदाराना कमेंट किए थे, जो फैक्ट्स पर आधारित नहीं थे।



CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 1 Page: NBTGRP04 User: kshitish.misra@timesofindia.co Time: 03-15-2026 22:08 Color:

हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक कसौली शिफ्ट, आज राज्यसभा वोटिंग के लिए साथ पहुंचेंगे चंडीगढ़

RS चुनाव से पहले रिजॉर्ट सियासत

■ NBT न्यूज, चंडीगढ़

हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर मतदान 16 मार्च को होगा। इससे कई दिन पहले कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश के रिजॉर्ट और होटल में भेज दिया है। कांग्रेस ने रविवार को हरियाणा के 37 में से 31 विधायकों को शिमला से कसौली शिफ्ट किया। विधायक टेंपो ट्रैवलर से कसौली पहुंचे। रविवार की रात कांग्रेस विधायक कसौली के रमाडा होटल में रहेंगे। यहां 40 कमरे बुक किए गए हैं। यह चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार से विधायक शिमला के गलू स्थित ट्विन टावर होटल में ठहरे थे। विधायकों ने शिमला में लंच किया यह होटल प्रियंका गांधी के फार्म हाउस से केवल 800 मीटर की दूरी पर है। हिमाचल के सीएम भी यहां मौजूद थे।

राज्यसभा चुनाव में आज वोटिंग

शुक्रवार से कांग्रेस विधायक शिमला के गलू स्थित ट्विन टावर होटल में ठहरे थे। शिमला में लंच के बाद रविवार को विधायकों को कसौली शिफ्ट किया

मॉक वोटिंग में बीजेपी के तीन वोट रद्द

शनिवार की शाम बीजेपी की मॉक वोटिंग में तीन विधायकों के वोट रद्द हुए। रविवार को उन्हें दोबारा वोट डालने की प्रैक्टिस कराई गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। कांग्रेस विधायकों को भी रविवार को वोट डालने की प्रैक्टिस करवाई गई। दो सीटों पर चुनाव होगा।

एक सीट जीतने के लिए चाहिए 31 वोट

हरियाणा में राज्य सभा के चुनाव में अब तक सबसे प्रमुख रूप से दो बार वोट रद्द होने के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने चुनाव के नतीजों को बदल दिया था। कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे। चुनाव के दौरान मतदान के लिए उस बैंगनी रंग की स्याही वाले पेन की जगह दूसरे पेन का उपयोग किया गया था। इन 14 वोटों के रद्द होने के कारण कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद हार गए और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की जीत हुई। 90 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों के संख्या बल के आधार पर इस बार एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी।

2016 में कांग्रेस के 14 वोट रद्द हुए थे

हरियाणा में राज्य सभा के चुनाव में अब तक सबसे प्रमुख रूप से दो बार वोट रद्द होने के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने चुनाव के नतीजों को बदल दिया था। 2016 में कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे। चुनाव के दौरान बैंगनी रंग की स्याही वाले पेन की जगह दूसरे पेन का उपयोग किया गया था। इन 14 वोटों के रद्द होने के बाद बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की जीत हुई। 2022 कांग्रेस के एक विधायक का वोट अमान्य घोषित किया गया। अजय माकन बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से हार गए थे।

IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में दो अकाउंट्स अफसर गिरफ्तार

जूलर समेत तीनों आरोपी एसीबी की रिमांड पर

■ NBT न्यूज, चंडीगढ़

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने 590 करोड़ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में दो लेखा अधिकारियों को रविवार को गिरफ्तार किया है। शनिवार को दिन के समय एसीबी की तरफ से सावन जूलर्स के मालिक राजन कटोदिया को गिरफ्तार किया गया था। एसीबी ने सभी तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके चार दिन का रिमांड लिया है। एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय में तैनात राजेश सांगवान (नियंत्रक वित्त एवं लेखा) तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद में तैनात रणधीर सिंह (नियंत्रक वित्त एवं लेखा) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बैंक घोटाले में जानबूझकर हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन किया। सह-आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी धन की हेराफेरी करने की आपराधिक साजिश रची। दोनों ने ही अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया और अवैध रिश्वत के रूप में बड़ी रकम स्वीकार की है।

सरकारी कर्मियों के द्वारा फ्रॉड में शामिल होने व रिश्वत की रकम स्वीकार किए जाने के फैक्ट सामने आने पर एसीबी ने केस में 7 पीसी एक्ट की धारा भी जोड़ी है। अभी तक पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट और दो अकाउंट अफसर की गिरफ्तारी हो चुकी है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सावन जूलर्स के मालिक राजन के द्वारा मुख्य आरोपियों के लिए कैश कन्वर्जन का काम किया गया व इसके लिए भारी कमीशन प्राप्त किया। आरोपी के द्वारा इन फर्मों/कंपनियों के नाम सोने के आइटम्स बेचना दिखाया गया।

- पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट और दो अकाउंट अफसर की गिरफ्तारी हो चुकी है।
- सावन जूलर्स के मालिक राजन ने मुख्य आरोपियों के लिए कैश कन्वर्जन का काम किया गया

TIMES interact
Connecting People, Connecting Needs.
To book your ad
Logon to: ads.timesofindia.com
or Call: 18001205474 (Toll Free)
Scan QR Code

भर्ती
भर्ती-रिक्त पदों की स्थिति
प्रशासन
वरिष्ठ / शीर्ष प्रबंधक

Alliance Air Aviation Limited
(A Wholly owned Subsidiary of AIAHL)
Alliance Air invites applications from Indian Nationals for the post of
CHIEF FINANCIAL OFFICER.
Interested candidates may log in to
www.allianceair.in

अन्य रिक्तियां
चालक

ऑटोमैटिक कार चलाने के लिए अनुभवी ड्राइवर चाहिए जो स्मार्टफोन पर नक्शा देखकर गाड़ी चला सके ! पीतमपुरा के नजदीक रहने वाले संपर्क करें ! सैलरी 20k+. # 9011065810

BOOK YOUR PERSONAL ADS
FOR BOOKING PLEASE CALL
AMIT :
9811790649
TO BOOK ONLINE LOG ON TO
Ads.timesofindia.com
SCAN QR CODE

तकनीकी
इंजीनियर्स

JOB VACANCY
Fresher Engineer Require For PLC Programmer And Marketing
Qualification
DIPLOMA / B.TECH ELECTRICAL
Mail - tag_automation@yahoo.co.in
Tel 0120-4327555

व्यक्तिगत
नाम परिवर्तन

I Sadhna Nigam W/O, Aman Nigam R/o Flat 2006, Tower 4, Panchsheel Wellington, Crossing Republik, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201016 have changed my name to Sadhna Saxena.

I Chetram S/O Jhinne Prasad, R/O A-13 East Arjun Nagar, Near Dr. Hedgewar Hospital Delhi-110032, have changed my name to Sushil Kumar for all future purposes.

I, Puneet Saran, holder of Passport No. N9044161, resident of New Delhi, hereby declare that the name of my wife is mentioned as Tanvi Saran in my passport. Her correct name is Tanvi Sudhir Vartak. Both names refer to the same person.

I, Dheeraj Kumar alias Dheeraj Kumar Sidana S/O Kewal Krishan Sidana R/O-122, Second Floor, HUDA Block A, DPS School, Sector 47, Gurugram, Haryana-122018, changed my name to Dheeraj Kumar Sidana.

मैं, शैलेश कुमार, पुत्र जय राम, निवासी C-73 ईडन टॉवर्स प्लॉट नंबर-30 सेक्टर-5 द्वारका नई दिल्ली-110075, मैं अपने नाम को सभी कार्यों के लिए शैलेश में बदल लिया है।

I Yash S/O Gyan Chand R/O of L-1st, 939/19, Sangam Vihar, Modern Savithri Public School, Sangam Vihar, New Delhi - 110062 shall henceforth be known as Yash Diwan affidavit no IN-DL71740784697458Y sworn before notary Sanjay Kumar Singh dated 13 March 2026.

EDUCATION FORUM

SNI-IATMA EDUCATION SOCIETY'S
PILLAI UNIVERSITY
ENTRANCE EXAMINATION
B. TECH. | B.DES | B.B.A. | B.C.A. | M.B.A. M.B.A.(INTEGRATED)
PILLAI UNIVERSITY LEVEL SCHOLASTIC EXAM
PULSE 2026
Mode: On Campus
Venue: Dr. K. M. Vasudevan Pillai Campus Sector 16, New Panvel - 410206
Register now: www.pillai.edu.in
TEST EVERY SATURDAY
100% SCHOLARSHIPS OFFERED
For more information
881 882 8837
ENGINEERING | DESIGN | ARCHITECTURE
COMPUTER APPLICATION | AVIATION
SPORTS MANAGEMENT | AI & DS
ANALYTICS | BUSINESS
NAVI MUMBAI'S FIRST STATE PRIVATE UNIVERSITY
WITH A LEGACY OF OVER 30 YEARS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

HEALTH & WELLNESS

गुप्त रोगी मिलें
घर बैठे दवा मंगायें
सेक्स रोगी
शुगर मोटापा
बचपन की गलतियां
बवासीर, सफेद दाग / सोरायसिस
आकाश दवाखाना
समय 10 - 7 तक
एक्सप्रेस टावर आकाश सिनेमा के पीछे आजाद पुर दिल्ली
9953396533
8860003863

SEX Problems?
स्थायी इलाज के लिए
चेतन आयुर्वेदा
▶ बदरपुर ▶ दरियागंज
▶ भजनपुरा ▶ छतरपुर
2582, Main Road, Daryaganj N.D.-2
9817469817

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. All creatives marked as Advertorial, Spotlight and Promotional Features are to be treated as Advertisements. The Times of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of the products and services. The Printer, Publisher, Editor, and the owners of The Times of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

TIMES interact
Connecting People, Connecting Needs.
TO ADVERTISE IN THE CLASSIFIEDS SECTION, FOR ANY OF THE BELOW MENTIONED CATEGORIES
MATRIMONIAL
PROPERTY
BUSINESS
RECRUITMENT, EDUCATION
CHANGE OF NAME, LOST & FOUND
SHOPPING
TENDER, PUBLIC NOTICE
SERVICES, VEHICLES, TRAVEL
BIRTHDAY/ ANNIVERSARY ADS
Please call us at the below mentioned nos.

Area / Zone	Contact Person	Mobile No.
Central Delhi1 + North Delhi	Amit Ghosh	98117 90649
Central Delhi2 + Ghaziabad	Sunil Srivastava	99994 99496
South Delhi + Faridabad	Raghav Arora	99999 95460
West Delhi + Dwarka + Gurgaon	Aman Pasricha	93128 33518
East Delhi + Noida	Sumit Negi	98992 68321

लॉरेंस गैंग की बादशाह को जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज

फेसबुक पर आरोपी ने पोस्ट की, खोपड़ी में गोली मारेंगे

■ NBT न्यूज/ पीटीआई, पानीपत

रैपर-म्यूजिक प्रोड्यूसर बादशाह को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। रविवार को सामने आए फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया कि गायक ने हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की है। पोस्ट में लिखा गया कि "सिंगर बादशाह, तुमने हरियाणा की संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की है। 2024 में तुम्हारे क्लब में हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अगली बार सिर में गोली मारेंगे।" इसमें नवंबर 2024 में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित बादशाह के बार-कम-लाउंज के बाहर हुए विस्फोट का भी जिक्र किया गया। दरअसल, बादशाह अपने नए हरियाणवी गीत **टटीरी** को लेकर विवादों में हैं। गाने के कथित अश्लील बोल को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पोस्ट में कहा गया, 2024 में ट्रेलर दिखाया था

बाल आयोग का सिंगर को नोटिस

■ **NBT न्यूज, चंडीगढ़ :** टटीरी गीत को लेकर विवादों में आए बॉलीवुड के गायक बादशाह की मुश्किल और बढ़ गई है। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बादशाह को नोटिस भेजकर तलब किया है। आयोग ने गायक के साथ ही निर्देशकों को भी नोटिस भेजा गया है। इसके लिए आयोग ने 7 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। टटीरी सॉन्ग 1 मार्च को आया था।

रिटायर्ड SI से 15 लाख की रंगदारी मांगने में गिरफ्तार

■ NBT न्यूज, पानीपत

हरियाणा के समालखा में पुलिस के एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर (एसआई) को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर एसआई से 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पुलिस ने इस मामले में रविवार को एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से एक लाख रुपये बरामद किए हैं।

सेवानिवृत्त एसआई सुखबीर सिंह ने रविवार को बताया कि उनके पुराने मित्र रणधीर ने उन्हें इस जाल में फंसाया। रणधीर ने फरवरी 2026 में उनकी मुलाकात महिला से कराई थी, जिसे उसने घरेलू हिंसा की शिकार बताया था। शिकायत के अनुसार, 10 मार्च 2026 को महिला ने सुखबीर सिंह को मदद के बहाने स्थित अपने घर बुलाया और उनसे अभद्र व्यवहार किया।

महिला पर हनी ट्रैप में फंसाकर धोखाधड़ी का आरोप

AI Image

बजट सेशन हफ्ते भर बाद आज से शुरू होगा

■ **NBT न्यूज, चंडीगढ़ :** करीब एक सप्ताह के अवकाश के बाद सोमवार से हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री दो मार्च को सदन में बजट पेश किया था। सदन में बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है। स्पीकर हरविंद्र कल्याण की तरफ से विधानसभा में विधान के अनुसार आठ स्टैंडिंग कमेटियां बनाई गई। 9 मार्च को सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन इन कमिटियों को बजट पर मंथन करने, सुझाव देने तथा संशोधन की सिफारिशों के अधिकार दिए गए थे। पिछले पांच दिन से सभी कमिटियों ने बजट पर अपने अपने विभाग की मदों के अनुसार मंथन किया गया है।

2157 पंचायतें TB मुक्त, अंबाला सबसे आगे

■ NBT न्यूज, चंडीगढ़

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने रविवार को कहा कि हरियाणा ने टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। 2025 में राज्य की 2,157 ग्राम पंचायतों को टीबी-मुक्त घोषित किया गया है, जो राज्य की कुल 6,237 पंचायतों 35 प्रतिशत है। तपेदिक के उन्मूलन में अंबाला सबसे आगे है।

सुमिता मिश्रा ने रविवार को कहा कि पिछले तीन वर्षों में टीबी-मुक्त पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस कार्यक्रम के जमीनी स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन को दर्शाती है। 2023 में राज्य की 574 पंचायतों को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला था वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,855 पंचायतों तक पहुंच गई।

AI Image



TIMES TRIBUTE
PAYING HOMAGE TO THE DEPARTED SOUL
To book your ad
Logon to: ads.timesofindia.com
or Call: 18001205474 (Toll Free)
Scan QR Code

ॐ ॐ

Late Smt. Kamini Kaushal Khandelwal
January 14, 1950 - March 14, 2026
PRAYER MEETING
DATE: 16TH March, 2026
TIME: 11:00AM - 12:00 PM
VENUE: Arya Samaj Mandir (Audi 1) B 31C, Kailash Colony - 48
Narender Khandelwal (Husband)
Virender Khandelwal, Ashok Khandelwal
Uma and Rajeev Khandelwal
Archana and Sachin Khandelwal
Megha and Sumit Khandelwal
Kanika and Sanchit Khandelwal
Simmi Khandelwal
Isha and Kartik Gupta
Sweta and Abhishek Mittal
Khandelwal Pariwar
Contact No. -9810111321, 9891462561

"HONOUR. COURAGE. BRAVERY. Three words that you taught us. Three words that help us cope with your loss'.
The silent joy of remembering a loved one.
The moments you shared together.
Little moments that make life beautiful.
Share them. With Friends. Relatives. Neighbours. Colleagues. With all those whose lives the departed Soul has touched. Because while life goes on, when you share memories, they stay on forever.

Publications	Total Outlay
The Times of India Delhi/NCR	5,600
TOI+NBT (Delhi/NCR)	8,800
TOI+ET (Delhi/NCR)	6,600

Maximum 10 lines
REMEMBRANCE
SHARING MEMORIES
For any information call
Vinod : 9958992088
Pankaj : 8130604727

TIMES TRIBUTES
RATE CARD

Publications	Rates per sq. cms
TOID Capital + NBT (Delhi+NCR)	1295
TOID Full Run ## + NBT (Delhi+NCR)	1360
THE TIMES OF INDIA (Delhi+NCR)	780
THE TIMES OF INDIA (Delhi) Full Run##	900
NAVBHARAT TIMES (Delhi+NCR)	595
THE ECONOMIC TIMES (Delhi+NCR)	715
SANDHYA TIMES (Delhi)	100

Rates effective 5th June 2019
▸ *Placement on specified obit pages only. ▸ This rate benefit is extended up till the size of 320 sq. cm only. ▸ ## Full run includes Delhi City + NCR (Including Gurgaon + Noida) + Chandigarh + Western U.P. + Uttarakhand ▸ TOI Capital (Delhi & NCR) Includes TOI Gurgaon & TOI Noida.
To place an Obituary announcement or Remembrance message please call
Vinod: 9958992088
Pankaj : 8130604727

TO BOOK AN OBITUARY AD PLEASE CONTACT
VINOD : 99589 92088 & PANKAJ : 81306 04727

बंदूक की नोक पर घर से अपहरण, मामला दर्ज

■ NBT न्यूज, कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में शनिवार की देर रात बंदूक की नोक पर बदमाशों ने घर से एक युवती का अपहरण कर लिया गया। करीब 15 दिन पहले भी इस युवती का अपहरण हुआ था। अब दोबारा हुई इस घटना से परिवार के लोग दहशत में हैं। परिवार करीब 6 महीने से यहां रह रहा है और पशुपालन से अपना गुजारा कर रहा है। पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर लिया है। दो पुलिस टीमें खोजबीन में लगी हैं।

युवती के भाई के मुताबिक, रात को पूरा परिवार सोया हुआ था। रात करीब 2:30 बजे पांच लोग पिस्टल/बंदूक के साथ उनके घर में घुस आए। तीन बदमाश जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले गए, जबकि दो बदमाश घर पर ही उन को बंदूकें तानकर खड़े रहे। शोर मचाने पर उन्होंने गोली मारने की धमकी दी।

आरोपी कॉलोनी के बाहर अपनी गाड़ियां खड़ी करके आए थे। कुछ देर बाद रास्ते पर उसकी बहन की चुन्नी पड़ी मिली। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी।

रेप का आरोपी चाचा गिरफ्तार

■ **NBT न्यूज, करनाल :** करनाल में रेप पीड़ित 15 साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की कमर पर फोड़ा होने के कारण उसे चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। रेप करने वाला व्यक्ति लड़की का रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी ने 8 महीने पहले घर में लड़की को अकेला देखकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने रविवार को लड़की के परिजनों की शिकायत पर आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि धमकी के कारण लड़की चुप रही। 11 मार्च को पेट में दर्द होने के बाद लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 1 Page: NBTGRP5 User: cci Time: 03-15-2026 22:17 Color:

NBT रियलिटी चेक

घरेलू सिलिंडर से ढाबों पर सुलग रहे चूल्हे

एलपीजी गैस के संकट ने दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग को पंख दे दिए हैं। एक तरफ डोमेस्टिक LPG यूजर्स हैं, जो या तो सिलिंडर की बुकिंग ही नहीं करा पा रहे, क्योंकि उनकी कॉल ही नहीं लग रही, या फिर बुकिंग करने के बाद भी टाइम पर सिलिंडर नहीं आ रहा और उन्हें गैस गोदाम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

ढाबे वालों ने कहा, कमर्शल सिलिंडर नहीं मिल रहे, घरेलू सिलिंडर लेना मजबूरी

ब्लैक में गैस सिलिंडर लेकर फिर शुरू किया काम

मौजपुर: मौजपुर सब्जी मंडी के पास रेहड़ी पर तंदूरी नान और छोले भटूरे बेचने वाले शख्स ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पैदा हुए एलपीजी गैस के संकट की वजह से कमर्शल गैस सिलिंडर अचानक मार्केट से गायब हो गए। इस वजह से उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। आज किसी तरह से 14 किलो वाला गैस सिलिंडर ब्लैक में खरीदा। सप्लायर 2500 रुपये मांग रहा था, लेकिन किसी तरह से 2200 रुपये में बात बनी। तब कहीं जाकर आज दोबारा से काम शुरू किया। गैस सिलिंडर महंगा मिला है तो क्या आप भी प्लेट का रेट बढ़ाएंगे? इस पर उनका कहना था कि रेट बढ़ाना हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ग्राहकों से भी पूरा सहयोग मिलेगा।

रेहड़ी पटरी वालों की बढ़ी परेशानी

लक्ष्मी नगर: कमर्शल एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे से लेकर रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार प्रभावित होने लगा है। आलम यह है कि सड़क किनारे लगने वाले ठेले पर अब घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल होने लगा है। एनबीटी ने लक्ष्मी नगर की पड़ताल की तो हर ठेले पर घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल होते हुए देखा गया है। इस मौके पर जब दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मजबूरन इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। घरेलू सिलिंडर भी पहले से अधिक दाम पर खरीद रहे हैं। जब हमने एक डोमेस्टिक LPG यूजर से बात की तो उन्होंने बताया कि बुकिंग के लिए कॉल ही नहीं लग रही है। कई कोशिशों के बाद उन्होंने ऐप से बुकिंग की मगर फिर भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। किल्लत ज्यादा न बढ़ जाए इसके खौफ में उन्होंने गैस गोदाम के भी कई चक्कर लगाए।

कश्मीरी गेट में रेहड़ियों पर डोमेस्टिक सिलिंडर हो रहे इस्तेमाल

कमर्शल गैस सिलिंडर की किल्लत, बढ़ी ब्लैक मार्केटिंग

अलीपुर: कई जगहों पर 14 किलो का डोमेस्टिक गैस सिलिंडर 3000 से 3500 रुपये तक में मिलने की बात कही जा रही है। हालात जानने के लिए जब पड़ताल की गई तो अलीपुर और नरेला के कई हिस्सों में रेहड़ियों, ढाबों, चाय की टपरियों पर कमर्शल सिलिंडर लगभग गायब दिखाई दिए। हालांकि अलीपुर और नरेला की कुछ बड़ी दुकानों के बाहर कमर्शल सिलिंडर रखे हुए दिखाई दिए। अलीपुर जीटी रोड पर सड़क किनारे कई रेहड़ियों पर ढाबा, छोले-कुलचे, पराठे और अन्य स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से घरेलू सिलिंडर का इंतजाम किया है। बुराड़ी और नरेला के कई इलाकों में दुकानदार भी घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल करते दिखे।

इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल करने को मजबूर दुकानदार

महावीर एनक्लेव: वेस्ट दिल्ली के महावीर एनक्लेव एरिया में भी गैस की किल्लत का खासा असर देखा जा रहा है। कई बड़े खाने पीने की दुकानों में घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल हो रहा है। पूछे जाने पर यह तो नहीं बता रहे हैं कि कमर्शल इस्तेमाल के लिए कैसे घरेलू गैस सिलिंडर उपलब्ध हो रहा है। हालांकि, बातचीत में अधिकतर दुकानदारों ने कहा कि ब्लैक में तीन से साढ़े तीन हजार के बीच घरेलू सिलिंडर मिल रहा है। इलाके के एक बड़े छोले भटूरे की दुकान पर एक साथ दो से तीन घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं, कुछ दुकानों में कमर्शल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी हो रहा था।

मोरी गेट की हैमिल्टन रोड पर भी मिले घरेलू सिलिंडर चलते

तीन हजार रुपये तक चुकानी पड़ रही है एक सिलिंडर की कीमत

आईटीओ स्थित ढाबे हों या चाय की दुकानें, हर जगह घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बातचीत में पता चला कि दुकान में एक दिन में गैस सिलिंडर खत्म हो जा रहा है, फिर भी इन्हें सिलिंडर मिल जा रहा है। हालांकि इसके लिए उन्हें एक सिलिंडर की कीमत 3 हजार रुपये चुकानी पड़ रही है। कुछ चाय वालों ने तो इंडक्शन और इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी संख्या अभी सीमित है।



कहीं छिपाकर तो कहीं खुलेआम हो रहा घरेलू सिलिंडरों का इस्तेमाल

राजापुरी: रेजिडेंशल कॉलोनियों में चल रहे कई ढाबों पर घरेलू LPG सिलिंडर से ही चूल्हे जल रहे हैं। द्वारका सेक्टर-5 के पास राजापुरी भरत विहार रोड पर एक साथ कई ढाबे चल रहे हैं। इन ढाबों में घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल होता हुआ देखा गया। कुछ ढाबा संचालकों ने सिलिंडर छिपाकर रखे हैं, जबकि कई जगह खुले तौर पर घरेलू सिलिंडर से खाना बनाया जा रहा है। मेन राजापुरी रोड पर भी घरेलू गैस सिलिंडर से कई ढाबे चल रहे हैं।

'अब खरीदनी पड़ेगी कोयले वाली भट्टी'

नवीन शाहदरा: मुस्कान चौक के पास तंदूरी नान की रेहड़ी लगाने वाले शख्स ने बताया कि गैस की किल्लत की वजह से चार दिन से काम बंद किया हुआ था। आज किसी तरह से घरेलू गैस सिलिंडर का जुगाड़ हो पाया तो काम शुरू किया है। उनका कहना था कि मेरा तो पूरा परिवार ही इसी पर निर्भर है। खर्च बचाने के लिए दोनों बेटों को भी इसी काम में लगाया हुआ है। बस एक लेबर को काम पर रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि एलपीजी गैस मिलने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए जल्द ही कोयले वाली भट्टी खरीद लूंगा।

आउटर दिल्ली के बूढ़पुर में ढाबों में हो रहे घरेलू सिलिंडर इस्तेमाल

NBT जन्मदिन मुबारक

आप भी भेज सकते हैं देश की जानी-मानी हस्तियों को जन्मदिन की बधाई। बस इस QR कोड को स्कैन करें और विश करें।

HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY

16 मार्च

राजपाल यादव

16 मार्च 1971 को जन्मे राजपाल यादव अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 'हंगामा', 'चुप चुप के' और 'भूल भुलैया' जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाकर दर्शकों को खूब हंसाया है।

@rajpalofficial
@rajpalofficial

17 मार्च

साइना नेहवाल

17 मार्च 1990 को जन्मीं साइना नेहवाल भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वे पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं और उन्होंने 2012 लंदन ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था।

@nehwalsaina @NSaina

18 मार्च

रत्ना पाठक शाह

18 मार्च 1957 को जन्मीं रत्ना पाठक शाह थिएटर और फिल्मों की शानदार अभिनेत्री हैं। टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में 'माया साराभाई' का उनका किरदार आइकॉनिक है। उन्होंने 'जाने तू... या जाने ना', 'गोलमाल 3' जैसी फिल्में की हैं।

@ratnapathak.s

19 मार्च

तनुश्री दत्ता

19 मार्च 1984 को जन्मीं तनुश्री दत्ता पूर्व बॉलिवुड अभिनेत्री और मॉडल हैं। 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज जीतने के बाद उन्होंने 'आशिक बनाया आपने' से डेब्यू किया था। वे भारत में #MeToo मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए भी चर्चा में रही थीं।

@iamtanushreeduttaofficial

20 मार्च

अलका याज्ञनिक

20 मार्च 1966 को जन्मीं अलका याज्ञनिक 90 और 2000 के दशक की सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। दो बार नैशनल अवॉर्ड और 7 फिल्मफेयर जीत चुकीं अलका का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली (सुनी जाने वाली) सिंगर के तौर पर गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है।

@therealalkayagnik
@thealkayagnik

मदन लाल

20 मार्च 1951 को जन्मे मदन लाल भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। वे 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ऐतिहासिक भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने सर विवियन रिचर्ड्स का सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया था।

@madanlal1983
@MadanLal1983

21 मार्च

रानी मुखर्जी

21 मार्च 1978 को जन्मीं रानी मुखर्जी बॉलिवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। 'कुछ कुछ होता है', 'साथिया', 'ब्लैक', 'मर्दानी' और 'हिचकी' जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय को सराहा गया है। उन्हें 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिल चुके हैं।

NBT कम्युनिटी कनेक्ट

देहरियों पर डाले गए फूल, घर-घर मना फूलदेई का त्योहार

Poonam.Bisht
@timesofindia.com

1. घर-घर जाकर अर्पित किए फूल
2. बच्चों ने थामी फूलों से भरी टोकरी
3. पारंपरिक अंदाज में मनाया फूलदेई

■ उत्तराखंडी समाज में यूं तो हर संक्रांति खास होती है मगर चैत्र माह की संक्रांति को सबसे विशेष माना जाता है। कारण कि बसंत के आगमन के साथ प्रकृति की गोद इस मौसम में फूलों से भर जाती है और इसी कारण चैत्र की संक्रांति को फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। फूलदेई को उत्तराखंड में कहीं इसी नाम से तो कहीं फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।

इस बार दिल्ली में उत्तराखंडी समाज ने फूल संक्रांति का त्योहार 15 मार्च को मनाया। हालांकि पंचांग के अंतर की वजह से कुछ जगहों पर 14 मार्च को भी यह मनाया गया। उत्तराखंड में कई घरों या इलाकों में चैत्र के पूरे माह देहरी पर फूल डालने का सिलसिला चलता है, जिसका समापन बिखौती के दिन होता है। इस बार 14 अप्रैल को बिखौती (बैसाखी) का दिन पड़ेगा।

बता दें कि फूलदेई के लिए गेंदा, गुलाब के अलावा खासतौर पर फ्योंली के पीले फूल चुने जाते हैं। असल में फूलदेई या फूल संक्रांति का यह त्योहार बच्चों और प्रकृति को जोड़ने का काम करता है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वे देहरी पर फूल डालने के लिए अपनी डलिया में जगह-जगह से ताजा फूल चुनकर लाते हैं और सुबह-सुबह घर-घर जाकर ये फूल लोगों की देहरी पर डालते हैं। पहाड़ों की इस विरासत को अब दिल्ली में भी अनेक संस्थाएं आगे बढ़ा रही हैं।

नजफगढ़ के धर्मपुरा में पर्वतीय होली संघ कीर्तन मंडल ने इस बार 14 मार्च को फूलदेई का त्योहार मनाया। आयोजन से जुड़े प्रदीप रावत खुदेड़ बताते हैं, हमने इलाके के 15-20 बच्चों को साथ लेकर मंदिर गए और वहां से फ्योंली के गीत गाते हुए लोगों की देहरियों पर फूल डाले। इस आयोजन की पहल ललिता बिष्ट और गुड्डी सुन्द्रियाल की ओर से की गई। इसी तरह बुराड़ी क्षेत्र में इस बार फूलदेई पर उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच, बुराड़ी की ओर से विशेष पदयात्रा निकाली गई जिसमें बच्चों, मातृशक्ति और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड पार्ट-2, पार्ट-1, समृद्धि, 5 किला, कौशिक, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन (डी-ब्लॉक, सी-ब्लॉक, ए-ब्लॉक, बी-ब्लॉक), प्रदीप विहार, फूल बाग सहित कई कॉलोनियों में पारंपरिक अंदाज में फूलदेई पर्व की खुशियां बांटी।

नवरात्र की रात को गूंजेंगे होली और चौपाई के सुर

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

Al Image

सनातन धर्म के हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 और चैत्र मास की प्रथम नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के फतेहपुर बेरी क्षेत्र में सांस्कृतिक आयोजन किया जाएगा। 20 मार्च की रात 8 बजे से चौपाल बड़ा चौक, मोहल्ला कड़िया में होली/चौपाई गायन प्रतियोगिता आयोजित होगी।

इस कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाली मंडलियां और कलाकार पारंपरिक होली और चौपाई गायन प्रस्तुत करेंगे। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं।

आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 71,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपये निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दादा धन्ना धार्मिक एवं सर्वसमाज सेवा समिति असोला-फतेहपुर बेरी की ओर से किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाने की अपील की गई है। साथ ही, जो लोग कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए इसका लाइव प्रसारण 'किन्नी टाइम्स' के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज में सांस्कृतिक जुड़ाव और धार्मिक उत्साह को मजबूत करते हैं।

- फतेहपुर बेरी में कलाकार दिखाएंगे अपनी प्रतिभा
- प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए रखे गए नकद इनाम
- यूट्यूब और फेसबुक पर भी होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

उत्तराखंड के लोक गायक दीवान कनवाल को दी श्रद्धांजलि

Poonam.Bisht
@timesofindia.com

■ **लोक गायन** की अपनी शैली और मंच पर भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों को दीवाना बना देने वाले उत्तराखंड के लोक गायक और कलाकार दीवान कनवाल का बुधवार को असामयिक निधन हो गया है। वह 66 वर्ष के थे और उत्तराखंड के हल्द्वानी में इलाज करवा रहे थे।

उनके करीबी सीएम पपनै ने बताया कि दीवान कनवाल दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ पहाड़ों पर रहकर भी लोक संस्कृति के संवर्द्धन के लिए कई काम कर रहे थे। वे पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली से बीते चार दशकों से जुड़े थे। पर्वतीय अंचल की लोकगायन विधा में तो निपुण थे। मूल रूप से अल्मोड़ा खत्याड़ी गांव निवासी दीवान कनवाल ने बचपन में गांव में होने वाली रामलीला के जरिए मंच से जुड़े। बारहवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान ही आकाशवाणी नजीबाबाद से वर्ष 1980 में उन्हें पहली बार लोकगीत गायन का अवसर मिला था। रोजगार की तलाश में वह 1984 में दिल्ली आए और यहां नौकरी करते हुए उनका परिचय सांस्कृतिक संस्था 'पर्वतीय कला केंद्र' से हुआ। उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर गीत नाट्य 'महाभारत' और 'भाना गंगनाथ' में गायन और अभिनय किया। 1984 में बनी पहली आंचलिक कुमाऊंनी फीचर फिल्म 'मेघा आ' में उन्होंने गीत गाए। स्वर्गीय दीवान कनवाल की स्मृति में बीते शनिवार को उत्तराखंड सदन में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महाकौथिग की। आयोजन से जुड़े सुरेंद्र हलसी ने बताया कि सभा में उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने उपस्थित होकर दिवंगत लोकगायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया।

विचार

आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सफलता का रास्ता बनाते हैं। जब मन मजबूत हो और चेहरे पर मुस्कान हो, तब कठिन से कठिन काम भी आसान लगता है। - स्वामी विवेकानंद

उम्मीद का फैक्ट

वाह ताज... बना हुआ है पर्यटकों की पहली पसंद

भारत का इतिहास और पुरानी इमारतें पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही हैं। आंकड़ों (2024-25) के मुताबिक, देश के पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 145 टिकट वाली ऐतिहासिक जगहों में आगरा का ताज महल एक बार फिर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह बन गया है।

- इंडिया टूरिज्म की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल में 62.6 लाख भारतीयों और 6.5 लाख विदेशियों ने ताज महल का दीदार किया।
- देश में घूमने का क्रेज बढ़ रहा है, 2024-25 में भारतीयों ने देश के अंदर 303 करोड़ से ज्यादा यात्राएं कीं। वहीं, 56 लाख विदेशी सैलानी भारत घूमने आए।
- घरेलू पर्यटकों की लिस्ट में ताज महल के बाद ओडिशा का सूर्य मंदिर (कोणार्क) दूसरे और दिल्ली की कुतुब मीनार तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखी गई।
- विदेशी पर्यटकों को आगरा और दिल्ली सबसे ज्यादा भाता है। टॉप-10 लिस्ट में 4 जगहें सिर्फ आगरा की हैं। भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से 74% लोग इन्हीं टॉप-10 स्मारकों को देखने जाते हैं।
- आज भारत के पास 44 यूनेस्को विश्व धरोहर जगहें हैं।

सोर्स: इंडिया टूरिज्म और ASI

रग्बी से ज़िंदगी तक, चुनौतियों को 'पास' करने में माहिर हैं ये लड़कियां

- ओडिशा के मयूरभंज जिले में, जहां बाल विवाह आम बात है और संसाधन भी कम हैं, वहां लड़कियां खेल के जरिए रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शुरुआत में परिवार और समाज इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वही लोग उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं।
- आरती मुर्मु ने हाल ही में मैदान पर अपने प्रदर्शन के लिए ओडिशा सरकार से मिले 5 लाख और 6 लाख रुपये के चेक अपने पिता को सौंपे। कभी उनके पिता उन्हें कम उम्र में शादी कराने की सोचते थे लेकिन अब वे समझ गए हैं कि रग्बी ने उनकी बेटी को पहचान दिलाने के साथ परिवार को आर्थिक सहारा भी दिया है।
- नैशनल लेवल की रग्बी खिलाड़ी पार्वती हांसदाह बारीपदा के मयूरभंज लॉ कॉलेज मैदान में खिलाड़ियों को वॉर्म-अप कराते हुए नजर आती हैं।

Diana.Sahu
@timesofindia.com

ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के पास बसा बोलागडिया गांव आज आदिवासी लड़कियों के रग्बी खेलने के कारण चर्चा में है। बाल विवाह और कम संसाधनों जैसी मुश्किलों के बीच ये लड़कियां खेल के जरिए अपनी किस्मत बदल रही हैं और इलाके को नई पहचान दे रही हैं। बोलागडिया के साधारण मैदान में 21 साल की आरती मुर्मु करीब 20 लड़कियों का नेतृत्व करती हैं। 17 साल की उम्र में परिवार उनकी शादी करा रहा था, लेकिन वह घर छोड़कर रग्बी ट्रेनिंग सेंटर आ गईं। आज उनके पास दो राष्ट्रीय गोल्ड मेडल हैं। मयूरभंज के हरिपुर कस्बे में कोचिंग देने वाली पार्वती हांसदाह ने भी परिवार के विरोध पर 'बस एक मौका' मांगा था कि एक साल में कुछ नहीं किया तो शादी कर लेंगी। आज वह 8 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेलकर 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं।

मयूरभंज जिला रग्बी फुटबॉल असोसिएशन (MDRFA) के सह-संस्थापक सुशील हेम्ब्रम बताते हैं कि सबसे मुश्किल काम माता-पिता को मनाना था। उन्हें डर था कि खेल में चोट लगने पर बेटी की शादी कैसे होगी। 2019 में सुशील हेम्ब्रम, सुनाराम किस्कू और दिव्यरंजन दास ने मिलकर गांवों के बच्चों को खोजना और ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसी प्रयास से बोलागडिया में MDRFA और बारीपदा में फ्यूचर स्टार स्पोर्ट्स अकादमी शुरू हुई, जहां से 100 से ज्यादा युवा राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं।

इस शानदार सफलता में स्थानीय समुदाय का बड़ा हाथ है। ग्रामीण अपनी पंचायत के जरिए हर महीने खिलाड़ियों के लिए चावल, दाल और सब्जियां दान करते हैं। शहरों में काम करने वाले युवा आर्थिक मदद भेजते हैं और मयूरभंज फाउंडेशन भी सहयोग करता है। पूर्व शाही परिवार की अक्षिता एम भंज देव ने बताया कि पिछले साल यहां पहली बार 'महाराजा 7s रग्बी टूर्नामेंट' भी आयोजित किया गया था।

आज भारतीय रग्बी टीम में मयूरभंज से सबसे ज्यादा लड़कियां चुनी जा रही हैं। कोच सुनाराम किस्कू बताते हैं कि पेशेवर पोषण और अच्छे मैदान की अभी भी कमी है। वर्तमान में भारत की महिला रग्बी टीम दुनिया में 56वें और पुरुष टीम 86वें स्थान पर है। इन कमियों के बावजूद मयूरभंज की इन बेटियों को भरोसा है कि वे अपनी लगन से देश को रग्बी में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।

आरती मुर्मु

Photos: Sanjib Das

सच्चे मायने में सशक्तिकरण: आज इन अकादमियों से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। आरती मुर्मु, पार्वती हांसदाह और संध्या रानी टुडू देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। पार्वती बताती हैं कि पहले समाज में लड़कियों का शॉर्ट्स पहनकर रग्बी खेलना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने ओडिशा और भारत के लिए खेलकर मेडल जीते तो वही लोग गर्व करने लगे।

यह ऐसा इलाका है जहां आज भी कम उम्र में शादी की परंपरा मौजूद है। हमारे लिए असली चुनौती खेल के लिए फिट लड़कियां ढूंढना नहीं था बल्कि उनके माता-पिता को समझाना था। - *सुशील हेम्ब्रम, सह-संस्थापक, मयूरभंज जिला रग्बी फुटबॉल असोसिएशन*

दूर देश में वसंत मेले की बहार...

देसी धुन पर थिरकी चीन की महिलाएं, जिया हिंदुस्तानी कल्चर

PTI

जब चीन के बीजिंग में घुंघरुओं की गूंज और संबलपुरी साड़ियों का जादू चला, तो सरहदें बेमानी हो गईं। भारतीय दूतावास की ओर से 'वसंत मेला' में 4000 से अधिक लोगों ने भारत के कल्चर को जिया। चीनी कलाकारों के इन थिरकते कदमों ने सात समंदर पार दोस्ती का संदेश दिया।

महिला वैज्ञानिकों ने शहर के बीच बना दिया हरियाली का अनोखा ठिकाना

Joeanna.Fernandes
@timesofindia.com

KK Chaudhary



जमीन के पास झाड़ियां और छोटे पौधे हैं, उनसे ऊपर बेलें और झाड़ियां हैं, जबकि सबसे ऊपर ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं

■ **मुंबई:** शहर के व्यस्त की भागदौड़ और कंक्रीट के जंगल के बीच एक अनोखा 'ग्रीन' चमत्कार देखने को मिल रहा है। यह शानदार पहल इंडियन वुमन साइंटिस्ट्स असोसिएशन (IWSA) की महिला वैज्ञानिकों ने की है। वाशी स्थित IWSA कैंपस में एक छोटा सा रेनफॉरेस्ट तैयार किया गया है, जो लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के करीब लाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इस परियोजना की शुरुआत प्रकृतिविद् विजया चक्रवर्ती की सोच का परिणाम है। उन्होंने इसे एक वास्तविक रेनफॉरेस्ट की तरह अलग-अलग परतों में विकसित किया है। जमीन की सतह पर छोटी झाड़ियां और पौधे हैं, उनके ऊपर बेलें और मध्यम ऊंचाई के वृक्ष हैं, जबकि सबसे ऊपरी स्तर पर विशाल पेड़ों को स्थान दिया गया है। यह त्रि-स्तरीय संरचना इस छोटे से क्षेत्र को बिल्कुल प्राकृतिक जंगल का रूप देती है।

IWSA की स्थापना 1973 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और जटिल वैज्ञानिक विषयों को समाज के लिए सरल बनाना रहा है। इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए साल 2018 में यहां 'लर्निंग गार्डन' की नींव रखी गई। इस गार्डन में प्रकृति का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है। यहां ऑर्किड, दुर्लभ औषधीय पौधे, बायोफ्यूल वाले वृक्ष और हवा को स्वच्छ करने वाले विशेष पौधे लगाए गए हैं। तितलियों को लुभाने वाले पौधों की वजह से यहां रंग-बिरंगी तितलियां भी डेरा डालती हैं। यह गार्डन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक खुली प्रयोगशाला जैसा है।

5 वीं की छात्रा ने खोजा सदियों पुराना शिलालेख

Ravindra.Uppar
@timesofindia.com

11 साल की लक्ष्मी ने योद्धा की आकृति देख इतिहास समझा, ग्रामीण स्थानीय देवता मानकर लंबे समय से कर रहे थे पूजा

■ **बेलगावी:** कर्नाटक के बेलगावी जिले के बैलहोंगल तालुक के मल्लम्मना बेलवाडी गांव में पांचवीं कक्षा की छात्रा लक्ष्मी प्रकाश हुंडी ने मंदिर के पास रखा सदियों पुराना वीर शिलालेख खोज निकाला। यह पत्थर गांव के हनुमान मंदिर के पास रखा था और ग्रामीण इसे शनि देव की मूर्ति मानकर पूजा करते थे। लक्ष्मी ने पत्थर पर बनी आकृतियों को ध्यान से देखकर गांव के बुजुर्गों को बताया, तब इसकी ऐतिहासिक पहचान सामने आई।

यह शिलालेख तीन हिस्सों में बना है। पहले हिस्से में एक योद्धा को दुश्मनों से लड़ते हुए और मवेशियों की रक्षा करते दिखाया गया है। दूसरे हिस्से में अप्सराएं उसे कैलाश ले जाती दिखती हैं। तीसरे हिस्से में शिवलिंग और नंदी के साथ स्वर्ग का दृश्य बना है। शोधकर्ता बालप्पा इरप्पा चिनगुडी के अनुसार यह तुरुगोल वीरगल्लु यानी मवेशियों की रक्षा में शहीद हुए वीर की याद में बना पत्थर हो सकता है। शैली के आधार पर इसे 12वीं या 13वीं सदी का माना जा रहा है।

NBT संग AI

AI के ताज़ा अपडेट्स

गूगल मैप का सबसे बड़ा अपडेट

गूगल ने एक दशक में सबसे बड़ा Google Maps अपडेट जारी किया है, जिसमें Gemini AI जोड़ा गया है। नया Ask Maps फीचर यूजर्स के सवाल समझकर ट्रिप प्लान सुझाएगा। इमर्सिव नेविगेशन 3D मैप, लेन, ट्रैफिक लाइट और सड़क विवरण दिखाएगा। यह US और भारत में रोलआउट हो रहा है।

Nvidia बना रहा ऑपरेटिंग सिस्टम

Nvidia और Palantir ने AI ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। यह Nvidia के ब्लैकवेल अल्ट्रा AI चिप्स, Palantir के सॉफ्टवेयर को जोड़कर AI डेटा सेंटर चलाने में मदद करेगा। इसका मकसद डेटा और सिस्टम पर पूरा नियंत्रण रखते हुए AI उपयोग करने देना है।

Meta ने टाला AI मॉडल का लॉन्च

AI Image

Meta ने अपने नए AI मॉडल Avocado की लॉन्चिंग टाल दी है क्योंकि इंटरनल टेस्ट में इसका प्रदर्शन गूगल, OpenAI और एंथ्रोपिक के मॉडलों से पीछे पाया गया। हालांकि यह Meta के पुराने मॉडलों और Gemini 2.5 से बेहतर है, लेकिन Gemini 3.0 से पीछे है। अब इसे मई में लॉन्च करेंगे।

मेसेज से हो रहे कई काम, ट्राई किया क्या

मेट्रो-बस टिकट, बर्थ, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, शिकायत-सुझाव सब कुछ एक टैप पर

वट्सऐप सिर्फ चैट करने या फोटो-विडियो भेजने का ऐप नहीं रहा। अब यह धीरे-धीरे लोगों के लिए कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच का आसान जरिया भी बनता जा रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में लोग वट्सऐप से मेट्रो और बस टिकट बुक कर रहे हैं, बिजली-पानी के बिल भर रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं और जन्म या जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं भी ले रहे हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) से इसे इतना आसान बनाया जा रहा है कि कम पढ़े-लिखे लोग भी स्थानीय भाषा और बोलकर भी इन्हें इस्तेमाल कर सकें। वट्सऐप पर बढ़ती डिजिटल सेवाओं को लेकर मेटा इंडिया में डायरेक्टर बिजनेस मेसेजिंग रवि गर्ग से प्रदीप तिवारी ने की बातचीत:

Q क्या वट्सऐप पर भी सरकारी सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?

आज भारत में करोड़ों लोग अपना दिन वट्सऐप से शुरू करते हैं और उसी पर खत्म करते हैं। हमने देखा कि लोग वट्सऐप के जरिए बिजनेस से भी जुड़ रहे हैं, जैसे पड़ोस की दुकान से सामान मंगवाना या शिकायत दर्ज कराना। हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार और नागरिक के बीच की दूरी को वट्सऐप के जरिए कम किया जाए।

Q वट्सऐप पर अभी कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं?

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नै और हैदराबाद समेत कई शहरों में रोज लगभग 70 लाख मेट्रो और बस टिकट वट्सऐप से बुक होते हैं। कई राज्यों में सरकारी सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शिकायत दर्ज करना, बिजली-पानी का बिल भरना या सब्सिडी से जुड़ी जानकारी लेना आदि वट्सऐप पर उपलब्ध हैं। कई पेमेंट ऐंड यूटिलिटी सर्विसेस जैसे टाटा AIA, बजाज, HDFC, AXIS, LIC, ICICI, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की सेवाएं भी ले सकते हैं। क्रोमा, आदित्य बिरला फैशन जैसे रिटेल ऑर्गनाइजेशन को भी वट्सऐप पर एक्सेस कर सकते हैं।

Q क्या किसी राज्य में यह व्यवस्था बड़े स्तर पर लागू हुई है?

आंध्र प्रदेश इसका अच्छा उदाहरण है। वहां सरकार ने गवर्नेंस वाया वट्सऐप का मॉडल शुरू किया है। एक ही नंबर 9552300009 पर मेसेज भेजकर लोग करीब 900 सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इनमें शिकायत दर्ज करना, बस टिकट बुक करना, मंदिर दर्शन के लिए स्लॉट बुक करना, बिजली-पानी के बिल भरना जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

रवि गर्ग

AI Image

क्या इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ रही?

बिल्कुल। डिजिटल सिस्टम में हर काम का रेकॉर्ड रहता है। नागरिक जो भी सेवा लेते हैं उसका रेकॉर्ड उनके पास भी रहता है और सरकार के पास भी। इससे भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है क्योंकि भुगतान सीधे सरकार के पास जाता है। इसके अलावा सरकारों के लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि कितने लोगों ने कौन सी सेवा ली और शिकायतें कितनी जल्दी हल हुईं। अगर किसी स्तर पर कोई शिकायत या अनुरोध लंबित है तो मंत्री से लेकर कर्मचारी तक उसे देख सकता है। इसमें सबसे अहम ज्यादा सेफ्टी और ट्रस्ट है। हमने प्राइवेसी को इसमें प्रमुख रखा है। यानी सिटिजन और गवर्नमेंट के बीच बातचीत को कोई तीसरा नहीं देख सकता है।

Q क्या पढ़ाई से जुड़ी सेवाएं भी वट्सऐप से मिल रही हैं?

आंध्र प्रदेश में पिछले साल छात्रों को परीक्षा का हॉल टिकट (एडमिट कार्ड) भी वट्सऐप के जरिए दिया गया था। करीब 90 प्रतिशत छात्रों ने अपना हॉल टिकट वट्सऐप से डाउनलोड किया। छात्रों और स्कूल दोनों को काफी सुविधा हुई। जहां इंटरनेट कम है, वहां पर इस सुविधा से छात्रों का काफी फायदा हुआ।

Q काफी वट्सऐप यूजर ऐसे होंगे, जो साक्षर नहीं हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है?

हमने इस बात को ध्यान में रखकर कई फीचर बनाए हैं। सबसे पहले तो हर राज्य में स्थानीय भाषा का विकल्प दिया गया है, जैसे तेलुगु, तमिल, हिंदी आदि। इसके अलावा वॉयस कमांड का फीचर भी है। यानी अगर किसी को टाइप करना नहीं आता या लिखना-पढ़ना नहीं जानते तो वह बोलकर भी सेवा ले सकता है। अब AI के जरिए भी ऐसी सेवाओं को और आसान बनाया जा चुका है। सरकारी फॉर्म में जानकारी भरने में भी AI मदद कर रहा है। तेलंगाना समेत कुछ जगहों पर हमने सरकार के लिए जो ऐप बनाया, उनमें AI की मदद से कई यूजर फ्रेंडली सेवाएं जोड़ी हैं।

Q क्या यह व्यवस्था भविष्य में पूरे देश में लागू हो सकती है?

हमारा लक्ष्य यही है। अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे राज्यों में कई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में हम कुछ सर्विसेस शुरू करने की तैयारी में हैं। हम दूसरे राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर तरह की सुविधा वट्सऐप पर सिर्फ Hi लिखने पर मिल जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की जानकारी और भुगतान जैसी सेवाएं वट्सऐप पर उपलब्ध हैं और आगे और सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं। यूपी में MSME विभाग से बात चल रही है, उनके लिए हम बॉट बना रहे हैं। फिलहाल में हम सिस्टम बना रहे हैं, उसके बाद लॉन्च कर सकते हैं।

Q स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो रहा है?

हां, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर हमने जन औषधि केंद्रों की जानकारी देने के लिए वट्सऐप सेवा शुरू करने वाले हैं। भारत में करीब 18 हजार जन औषधि केंद्र हैं। वट्सऐप पर मेसेज करके लोग अपने नजदीकी केंद्र की जानकारी पा सकते हैं और सस्ती दवाओं के बारे में जान सकते हैं। अगर सरकार ने चाहा तो हम ये भी बता सकते हैं कि किस औषधि केंद्र पर कौन सी दवा उपलब्ध है।

Q आने वाले समय में आपका मुख्य फोकस क्या रहेगा?

हमारा फोकस दो चीजों पर है- पहला, ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवाओं को वट्सऐप पर लाना और दूसरा, AI की मदद से इन सेवाओं को और आसान बनाना। हमारा लक्ष्य है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह शहर में हो या गांव में, सिर्फ वट्सऐप के जरिए सरकारी सुविधाएं आसानी से पा सके। हम सर्विसेस और चैटबॉट दोनों पर इस साल फोकस कर रहे हैं। टेक्नॉलजी में हम लगातार सुधार कर रहे हैं। AI की सुविधा भी हम वट्सऐप पर लाएंगे, जहां से फॉर्म भरना, करेक्शन आदि सबकुछ हो सकेगा।

Q ऐसी सर्विस जिसे काफी पसंद किया गया हो?

हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के साथ भी चैटबॉट बनाया है। यूजर्स भारत के 170 ASI धरोहरों जैसे किसी म्यूजियम, ताजमहल, लाल किला आदि का टिकट वट्सऐप नंबर 8422888905 पर बुक कर सकते हैं। इन धरोहरों के बारे में भी काफी जानकारी इसी नंबर से मिल सकती है। आने वाले समय में हम इस लिस्ट को और बढ़ाने वाले हैं। इसमें कुछ ऐतिहासिक बातों को भी शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

AI Image



सेहत से जुड़ी सलाह के लिए माइक्रोसॉफ्ट लाया टूल

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot Health नाम का एक डिजिटल हेल्थ असिस्टेंट लॉन्च किया है। यह मेडिकल रिपोर्ट, फिटनेस डिवाइस के डेटा और हेल्थ हिस्ट्री को समझकर लोगों को उनकी सेहत के बारे में जानकारी और सलाह देता है। कंपनी के मुताबिक, इससे मरीज अपनी सेहत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर कोई समस्या हो तो यह भी बता सकता है कि उन्हें किस तरह के डॉक्टर जैसे फिजिशियन, ऑर्थो या गायनो को दिखाना चाहिए।

हेल्थ रिपोर्ट, फिटनेस डेटा पर देगा सेहत की जानकारी

यूजर अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी भी जोड़ सकते हैं और AI उसे समझकर उन्हें सही सुझाव देगा। मान लीजिए किसी को नींद की समस्या है, फिटनेस ट्रैकर का डेटा खराब नींद दिखा रहा है और हाल की रिपोर्ट में कुछ बदलाव हुआ है, तो यह प्लैटफॉर्म इन सबको जोड़कर कारण समझने में मदद कर सकता है। डॉक्टर से मिलने से पहले पूछे जाने वाले सवाल भी यह सुझा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यूजर का डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाएगा। यूजर चाहे तो किसी भी वक्त अपने डेटा को हटा सकते हैं या डिवाइस कनेक्शन को बंद भी कर सकते हैं।

यह प्लैटफॉर्म 50 से ज्यादा फिटनेस और हेल्थ डिवाइस जैसे Apple Health, Oura और Fitbit से डेटा जोड़ सकता है।

कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं

Copilot Health को बेहद यूजर फ्रेंडली बनाने का दावा किया गया है। यूजर Copilot ऐप या वेबसाइट में जाकर Copilot Health सेक्शन खोलेंगे। वहां अपना बेसिक हेल्थ प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे उम्र, लिंग आदि। इसके बाद वे चाहें तो अपनी हेल्थ रिपोर्ट, लैब टेस्ट, फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टवॉच का डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। फिर AI इन जानकारियों का विश्लेषण करके हेल्थ से जुड़े ट्रेंड, संभावित समस्याएं और सुधार के सुझाव दे सकता है।

भारत में कब तक होगा लॉन्च

माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot Health को फिलहाल अमेरिका में लॉन्च किया है और शुरुआत में यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसके लिए वेटलिस्ट खोली गई है। यानी इच्छुक लोग पहले रजिस्टर करेंगे और फिर उन्हें धीरे-धीरे एक्सेस दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि भविष्य में इसे अन्य देशों और भाषाओं में भी लाने की योजना है।

अगर आप भी AI से जुड़ी किसी जानकारी या सवाल का जवाब चाहते हैं, तो हमें nbtreader@timesofindia.com पर ईमेल करें। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। ईमेल के सब्जेक्ट में AI जरूर लिखें।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-03-2026 Zone: Gurgaon Edition: 1 Page: NBTGRP7 User: devid.sharma@timesofindia.com Time: 03-15-2026 22:16 Color:

फटाफट खबरें

बाइक लूटने वाले 2 बदमाश पकड़े

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्लीः विकासपुरी थाना पुलिस ने विकासपुरी इलाके में राहगीरों से मारपीट कर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरमान खान और रशिद खान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन और चार टू व्हीलर बरामद किए हैं। अरमान खान पर पहले से दो केस दर्ज हैं।

ड्यूटी से लौट रही महिला से फोन छीना

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्लीः द्वारका इलाके में फ्लिपकार्ट कंपनी से ड्यूटी कर लौट रही एक महिला से बाइक सवार आरोपियों ने मोबाइल फोन छीन लिया। महिला जब तक कुछ समझ पाती या शोर मचाती दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छीना था मोबाइल, 6 माह बाद अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्लीः पहाड़गंज पुलिस ने एक महिला से मोबाइल छीनने वाले घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वरुण (28) के तौर पर हुई है। वह नबी करीम इलाके का घोषित बदमाश है। फिलहाल पुलिस उसके फरार साथी का पता कर रही है। सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि 10 सितंबर 2025 को इससे जुड़ी शिकायत मिली थी।

पुराने झगड़े में युवक पर हमला

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्लीः नंद नगरी इलाके में पुराने झगड़े में तीन दोस्तों ने एक युवक पर हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए उसके दोस्तों ने जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के बयान पर नंद नगरी पुलिस ने अभिनव,अरुण उर्फ मनीष और जतिन उर्फ निखिल के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

लोन का झांसा देकर ठगी, अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्लीः सेंट्रल जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। ये लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करती थी। डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपी से ठगी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और ठगी के 20 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं।

माचिस जलाते ही बाथरूम में लगी आग से बुज़ुर्ग की झुलसकर मौत

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

किसी तरह आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक बीनू झुलस चुकी थी

बदरपुर इलाके की घटना, धमाके के साथ लगी थी आग

बदरपुर इलाके में शनिवार शाम 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला छत पर बने बाथरूम में बीड़ी पीने के लिए गई थीं। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, अचानक धमाका हुआ और बाथरूम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि महिला खुद को बचा नहीं सकीं और मौके पर ही बुरी तरह झुलस गईं।

मृतका की पहचान बीनू सिंह उर्फ पुष्पा सिंह (65) के रूप में हुई है। वह मोलरबंद, बदरपुर इलाके में परिवार के साथ रहती थीं। धमाके की आवाज सुनते ही परिवार के लोग तुरंत छत की ओर दौड़े, जहां बाथरूम में आग लगी हुई थी। परिजनों ने किसी तरह खुद ही आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बीनू सिंह गंभीर रूप से झुलस चुकी थीं। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। साथ ही क्राइम टीम और एफएसएल को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी के अनुसार, बीनू सिंह अपने तीन बेटों के साथ मोलड़बंद इलाके में रहती थीं। उनके पति कमला सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में बड़े बेटे नरेंद्र सिंह गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि दूसरे बेटे धर्मेंद्र साउथ एक्सटेंशन में नौकरी करते हैं। सबसे छोटा बेटा अंकित अभी पढ़ाई कर रहा है।

परिवार की बहू ममता सिंह के मुताबिक, उनकी सास को जब भी तनाव होता था, वह चोरी-छिपे छत पर बने बाथरूम में जाकर बीड़ी पीती थीं। परिवार को इसकी जानकारी थी, लेकिन वह घरवालों के सामने बीड़ी नहीं पीती थीं। शनिवार शाम भी वह इसी तरह बीड़ी पीने के लिए बाथरूम में गई थीं। माचिस जलाते ही अचानक धमाका हुआ और बाथरूम में आग लग गई, जिससे वह झुलस गईं। परिजनों का दावा है कि करीब दो महीने पहले उन्होंने घर में पीएनजी कनेक्शन लगवाया था और उसमें लीकेज की समस्या थी। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई थी। परिवार का कहना है कि गैस लीकेज के कारण ही यह हादसा हुआ है।

हालांकि, पुलिस फिलहाल पीएनजी लीकेज की संभावना से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि बाथरूम में कबाड़ का सामान रखा हुआ था और संभव है कि उसी में मौजूद किसी ज्वलनशील वस्तु के कारण आग लगी हो। एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह साफ हो पाएगी।

चल रही जांच...

- मोलरबंद बदरपुर इलाके में शनिवार शाम हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है
- परिजनों का कहना है कि PNG कनेक्शन में लीकेज की वजह से ही बाथरूम में आग लगी
- परिवार का आरोप, लीकेज की कई बार की थी शिकायत, लेकिन IGL ने नहीं दिया ध्यान
- लोकल पुलिस अभी PNG लीकेज के कारण आग लगने की आशंका से इनकार कर रही है
- पुलिस बोली, बाथरूम में रखा था कबाड़, उसी में मौजूद किसी ज्वलनशील वस्तु से लगी आग

नेचर बाजार में आग, 40 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

घटना के समय बंद था बाजार, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

महरौली इलाके के छतरपुर स्थित पर्यटन विभाग के नेचर बाजार में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखकर पुलिस और दमकल विभाग को मामले की सूचना दी। खबर मिलते ही एक-एक कर दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आकर करीब 40 से अधिक स्टॉल और दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। इस आगजनी में दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय बाजार बंद था, इसलिए किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

दमकल अधिकारी के अनुसार, नेचर बाजार दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक विशेष बाजार है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के कारीगरों और कारोबारियों को अपने पारंपरिक उत्पाद बेचने के लिए स्टॉल दिए जाते हैं। यहां कपड़े, हस्तशिल्प, आभूषण, सजावटी सामान और विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वस्तुएं बिकती हैं। मौजूदा समय में यहां 6 मार्च से 16 मार्च तक 'दस्तकार' नाम से एक विशेष आयोजन चल रहा था। इस कार्यक्रम के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से आए दुकानदारों ने बड़ी मात्रा में सामान और सजावट की तैयारी की थी। लेकिन अचानक लगी आग ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और अधिकांश दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

लोगों ने बताया कि शुरुआत में बाजार के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। बाजार में कपड़ों की दुकान लगाने वाले नवीन ने बताया कि आग में उनका काफी सामान जल गया है और अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों ने सरकार से मुआवजा देने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।

वहीं डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार, पुलिस को सुबह करीब 7:33 बजे पीसीआर कॉल के जरिए अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर के पास आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही महरौली थाने से पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि आग नेचर बाजार, दिल्ली हाट छतरपुर में लगी है और तेजी से फैल रही है। डीसीपी के अनुसार, दमकल विभाग की पांच गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।

- घटना के समय बाजार बंद था, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं
- दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, डेढ़ घंटे बाद आग पर पाया काबू

बवाना हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड टीम ने बवाना इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान योगी उर्फ देवराज दबास के रूप में हुई है। वह दिल्ली के गांव पूठ खुर्द का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में 8 मार्च को संपत्ति विवाद के चलते भूपेंद्र की गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की है।

डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक 8 मार्च को बवाना-सुल्तानपुर डबास रोड स्थित राम वाटिका के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान 24 साल के भूपेंद्र उर्फ भोलू के रूप में हुई थी। इस मामले में बवाना थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। लोकल पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर उसे छावला बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया।

संपत्ति विवाद में 8 मार्च को मारी थी गोली

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN: L74899DL1970GOI005276, जीएसटी नंबर : 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय : हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 7 'ए', लोधी रोड नई दिल्ली–110003, फोन : 011–24648420
hudco

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु सूचना

हडको ने अगस्त क्रांति भवन, प्लॉट सं. 25, भीकाजी कामा प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110066 में एक बहुमंजिला (भूतल+3+बेसमेंट) कार्यालय–सह–शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया है। इस भवन की विवरणिका हडको की वेबसाइट www.hudco.org.in से डाउनलोड की जा सकती है।

हडको उक्त भवन के शेष उपलब्ध स्थान लगभग 61,000 वर्गफुट कार्पेट एरिया को "जैसा है, जहां है आधार पर" पीएसयू/सरकारी विभागों/सरकारी एजेंसियों/एमएनसी/बैंकों/वित्तीय संस्थानों को किराये पर देने का प्रस्ताव करता है। इच्छुक एजेंसियां 30 दिनों के भीतर ईमेल amwing@hudco.org के माध्यम से हडको को अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकती हैं।

कार्यकारी निदेशक (एएम)

Career Launcher
After XII
LAW | IPM | CUET
2-Year, 1-Year, Crash Course available
New batches starting soon. Enroll now!
9289-911-842

कांग्रेस MLA के पारिवारिक समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री

■ NBT न्यूज, झज्जर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को झज्जर के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के यहां आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत की। यह समारोह शहर की अनाज मंडी में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सीएम के साथ कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए।

कुछ दिन पहले विधायक कुलदीप वत्स के भतीजे की शादी हुई थी। इसी उपलक्ष्य में रविवार को प्रीतिभोज का आयोजन किया गया। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। सीएम ने नवयुगल को आशीर्वाद दिया और परिवार को शुभकामनाएं दीं, हालांकि उन्होंने इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे, वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा समेत कांग्रेस के कई पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। इनमें पूर्व विधायक दान सिंह, राजेंद्र जून, नरेश कौशिक आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए।

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे

गर्मी के दिन!
अब घर में चाहिए



कैलास जीवन
मल्टिपर्पज् आयुर्वेदिक क्रीम

आँखों की जलन
गुनगुने पानीसे चेहरा और आँखें साफ कीजिए. रात को सोते समय कैलास जीवन आँखों की पलकों पर हलकासा लेप लगाकर रुई की पट्टी रखिए. आँखों की जलन से आराम पाइए और शान्त एवम् गहरी निद्रा का अनुभव लिजिए.

कील-मुहाँसे
चेहरा गुनगुने पानीसे सेकने के बाद धोकर नरम मुलायम सुती कपडेसे सुखाकर कैलास जीवन हल्के हाथोंसे चेहरेपर लगाइए. कील-मुहाँसों की तकलीफ से राहत मिलेगी. चेहरा साफ, कांतिमान होकर निखर आएगा.

एडियोंका फटना
पाँव धोकर, कुछ देर तक गुनगुने पानी में रखिए, नरम बनने के बाद मुलायम सुती कपडे से सुखाएँ. फटी एडियों पर कैलास जीवन धीरेसे लगाएँ. मलना नही. कैलास जीवन त्वचामें घुल जाएगा और फटी एडियों पर असर करेगा. एडियाँ और पाँव की त्वचा साफ, मुलायम बन जाएगी.

बवासीर / फिशर्स
एक चम्मच कैलास जीवन में उतनी ही मात्रा पीसी शक्कर मिला कर रोज रात (२१ दिनों तक) सेवन किजिए तथा प्रतिदिन २-३ बार उस जगह पर लगाइए. बवासीर, फिशर्स से राहत मिलेगी. परहेज आवश्यक.

हाथ पाँव और आँखो की जलन, मुहाँसे, मुँह के छाले, एड़ियों का फटना, कटना, जलना, झुलसना, डायपर-नॅपी रॅश आदि के लिए गुणकारी।
विकार अनेक, इलाज एक... आज ही खरीदिए।

Also available on amazon Flipkart netmeds.com
Available in: 20g Tube, 30g, 60g, 120g, 230g Bottle
Manufacturer: ASUM, Pune. 020-24486865 | Customer Care: Prashant: 91300 26070 | asumkj@gmail.com | www.asum.com

Distributor: Delhi: Gopal Stores: 9810524934, Noida: Ajay Medical: 0120-2527961
Seelampur: Agarwal Ayurvedic: 9711251291, Saraswati Vihar: Saraswati Ayu: 27058720
Motinagar: Ishar Dass & Sons: 9313519596, Con. Circle: Nath: 9899441605,
Gaziabad - Vaishali: Shri Krishna Ayurved: 9873603747
Khan Market: Preet Medicos: 9899659582, Gurgaon: Vashishth Medical: 9873321179
Faridabad: Laxmi Ayurvedic: 9810083760
Also Available at Chandni Chowk, Bhagirath Palace, Khari Baoli.

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY
New Delhi
(A NAAC Accredited A++ State University established by Govt. of NCT of Delhi)

ADMISSIONS OPEN
ACADEMIC SESSION 2026-27

Undergraduate | Postgraduate | Ph.D. Programmes
Nearly 40,000 Seats | 230+ Academic Programmes
120+ Affiliated Colleges | 18 University Schools | 2 Centres of Excellence

GLOBAL & NATIONAL RANKINGS
- Asia's Top 300 – QS World University Rankings 2026
- 28th in India | Top 1000 Worldwide – Times Higher Education Rankings 2026
- 26th in India – QS Sustainability Rankings 2026

PROGRAMMES THAT SHAPE THE FUTURE

Engineering & Allied Programmes
B.Tech in multiple disciplines including Computer Science, IT, Data Science, Industrial Chemistry, Robotics, Bio-Technology, AI, etc.M.Tech in multiple disciplines including Computer Science, IT, ECE, AI & Data Science, Robotics, Bio-Technology, etc.B.Arch | M.Arch | M.Plan

Medical & Allied Health Sciences Programmes
MBBS | BDS | BAMS | BHMS | B.Sc (Yoga)
B.Sc. Hons (Nursing) | Post Basic B.Sc (Nursing) Bachelor of Physiotherapy (BPT)
Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
Bachelor of Prosthetics & Orthotics (BPO)
Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology B.Sc (MLT)
Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
B.Sc (Medical Imaging Technology)
B.Sc Medical Technology (Radiotherapy)
D.Pharm | B.Pharm | M.Pharm
MD/MS/DM/M.Ch. | MPT | MOT | MPO
M.Sc (Nursing) | Master of Physical Health
PG Ayurveda | MD Unani
PG Homeopathy

Law & Legal Studies Programmes
BA-LL.B. (Hons.) | BBA-LL.B. (Hons.)
LL.B. (Hons.) | LL.M.

Humanities, Social Sciences & Liberal Arts Programmes
BA (English Hons.) | MA (English)
BA (Economics Hons.) | MA (Economics)
BA Liberal Arts (Hons.) with major in Psychology, Pol. Science, History & Sociology

Professional Programmes
Undergraduate
BCA | B.Com. (H) | BBA & Allied Programmes/
5-Year BBA/MBA Intergrated Programme
BA (JMC) | Bachelor of Management Studies
B.Ed. | B.Ed. (Special Education) | BA B.Ed.
Bachelor of Design | BHMCT
B.Sc (Environmental Science)BS (Packaging Tech) | BSc-MSc (Dual Degree)
Postgraduate
MBA | MCA/MCA (SE) | MA (Mass Comm)
M.Ed. | M.Ed. Spl Education-Intellectual Disabilities | Master of Design
MBA (Executive Program)-Weekend
MBA (Disaster Management)-Weekend
MBA (Fire & Industrial Safety)M.Sc in Geoinformatics, Bioinformatics, Microbiology, Molecular Diagnostics, Environment Management, etc.

Ph.D. Programmes
Information Tech. | Computer Science & Engg. Computer Applications | Artifical Inteligence-Data Science | Artificial Intelligence-Machine Learning | Industrial Internet of Things (IIoT)Electronics & Comm. Engg. | Mechanical & Automation Engg. | Automation & RoboticsChemical Technology | BiotechnologyArchitecture & Planning | Law & Legal StudiesManagement | Mass Communication | EnglishPharmaceutical Sciences | History | EducationDesign | Environment Science | SociologyMathematics | Chemistry | Physics | Economics

The above list of programmes is indicative. Please scan the QR code to view the complete and detailed programme list.

Registration Window Open till 31st March 2026
For further information, please visit: http://www.ipu.ac.in/
Admission Portal: ipu.admissions.nic.in
Scan it for details

Admission Through: University CET | CUET (UG/PG) | National Level Tests (JEE, NEET, CLAT, Merit Based Programmes, etc.)
Note: The appearing candidates can also apply for all the programmes.

NOTE : -

[: राजस्थान पत्रिका , दैनिक जागरण delhi, नवभारत टाइम्स delhi, अमर उजाला delhi, हिन्दुस्तान delhi, Pioneer hindi delhi, जनसत्ता delhi,]

English NEWSPAPERS
[Times Of India delhi, Indian Express delhi, The Hindu delhi, Financial Express delhi, economic times delhi , the Pioneer english delhi , the tribune delhi] ETC.

We are providing all news paper pdf hindi and English want to read daily newspapers by pdf please msg me on telegram

2. आकाशवाणी (AUDIO)

whatsapp Group ka link pane ke liye Newspaper_pdf_bot par jaye.

Click here to contact:-https://t.me/Newspaper_pdf_bot
Or type in Search box of Telegram
@Newspaper_pdf_bot And you will find a channel
BACKUP GROUP LINK
https://t.me/joinchat/5P9EL1JaqoYzNTI1

Hindi-English News Paper Website:- onlineftp.in